



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44) नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3, 1990 (कार्तिक 12, 1912)

No. 44) NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3, 1990 (KARTIKA 12, 1912)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग I--खण्ड 4

### [PART I--SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 1990

सं० 1378, दिनांक 19-9-90—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव, श्री एस० के० बुजे, भा० आ० नि० से०, को 12 सितम्बर, 1990 (पूर्वाह्न) से 31-5-1992 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आवेग होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० 1379, दिनांक 18-9-90—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव/सहायक वित्त सलाहकार श्री योगेश चन्द्र, भा० आ० नि० सं०, को 27 अगस्त, 1990 (पूर्वाह्न) से रक्षा मंत्रालय में उप वित्त सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० 1380, दिनांक 19-9-90—रक्षा मंत्रालय में योजना अधिकारी (मिस्टम), युग कैप्टन एम० के० अरोड़ा की सेवाएं आगे तैनाती के लिए 14 सितम्बर, 1990 (अपराह्न) से वायुसेना मुख्यालय को सौंपी जाती हैं।

सं० 1381, दिनांक 1-10-90—श्री एन० के० साहा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, उप सचिव, रक्षा मंत्रालय का केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी (निवेशक स्तर) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 1 अक्टूबर, 1990 के अपराह्न से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

सं० 1382, दिनांक 1-10-90—राष्ट्रपति, श्री एन०एच० वेंकटरमण, केन्द्रीय मन्त्रिवालय आणुलिपिक सेवा, सचिव के निजी सचिव रक्षा मंत्रालय को अधिबर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 30 सितम्बर, 1990 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

गो० भी० बडवडिगी  
अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

(थल सेना मुख्यालय)

डी जी बी प्रार मुख्यालय

सं० 1383, दिनांक 10-9-90—श्रीमती शान्ति कुन्ना, आणुलिपिक वर्ग ग को अस्थाई रूप से आणुलिपिक वर्ग "ख" के पद पर सशस्त्र सेना मुख्यालय आणुलिपिक सेवा में दिनांक 23-8-90 (अपराह्न) से दिनांक 31-12-90 तक की अवधि या कर्मचारी की चयन सूची के उपलब्ध होने (जो भी पूर्व हो) के लिए नियुक्त करते हैं।

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है और उन्हें प्रशासनिक कारणों से बिना किसी नोटिस के प्रत्याभूति किया जा सकता है। यह इस पर नियमित आधार पर नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर

सकती है और उनकी यह अस्थायी आधार पर की गई सेवा बरिष्ठता के लिए नहीं गिनी जाएगी।

टी० एम० स्याल  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

तटारक्षक

सं० 1384, दिनांक 13-9-90—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

- (क) उपमहानिरीक्षक (जी० डी०) 01 जून, 90 से महानिरीक्षक अ० क० शर्मा (0181-एल०) (जी० डी०) के रैंक में पदोन्नत।
- (ख) उप-कमाण्डेंट (तकनीकी) 02 मई, 90 से कार्यकारी अ० क० डे० (4006 डी०) कमाण्डेंट (तक०) के रैंक में पदोन्नत।
- (ग) सहायक कमाण्डेंट (जी० डी०) 03 मई, 90 से डिप्टी कमाण्डेंट के० आर० नौटियाल (पी० डी०) के रैंक में पदोन्नत। (0070-जे०)
- (घ) अधिकारी पी० देवराज 01 जून, 90 से सहायक कमाण्डेंट (जी० डी०) के रैंक में पदोन्नत तथा पी संख्या 0257-ज का आबंटन। (00811-टी०)
- (ङ) पी० एम० ई० एम० राय 01 जून, 90 से सहायक-क कमाण्डेंट (तकनीकी) के रैंक में पदोन्नत तथा पी सं० 4068-एस० का आबंटन। (07104-डब्ल्यू०)
- (च) श्री डेवी माईकल (0258-एल०)
- (छ) श्री संजीव त्रिखा (0259-एम०) ।
- (ज) श्री मुकुल गर्ग (0260-पी०)
- (झ) श्री पी० के० मिश्रा (0261-क्यू०)
- (ट) श्री श्रीकुमार (0261-एस)
- (ड) श्री अनिल कुमार पी० (0265-सी०)
- (ड) श्री टी० रघुरामन (0263-बी०)
- (ढ) श्री प्रवीण कुमार मिश्रा (0264-एक्स०)
- (ण) श्री एन० जी० रविन्द्रन (4069-बी०)
- 08 जुलाई, 90 से सहायक कमाण्डेंट (जी० डी०) के रैंक में नियुक्त। ये 2 वर्ष की अवधि तक परीबीक्षाधीन रहेंगे।
- 07 जुलाई, 90 से सहायक कमाण्डेंट (जी० डी०) के रैंक में नियुक्त। ये 2 वर्ष की अवधि तक परीबीक्षाधीन रहेंगे।
- 06 अगस्त, 90 से सहायक कमाण्डेंट (तकनीकी) के रैंक में नियुक्त किए गए हैं। ये 2 वर्ष की अवधि के लिए परीबीक्षाधीन रहेंगे।

एन० सी० एस० नेगी  
अवर सचिव

(नेवी ब्रांच)

नौसेना मुख्यालय

सं० 1385, दिनांक 25-9-90—निम्नलिखित सहायक उनके नाम के सामने दिखाई गई अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, स्थानीय आधार पर स्थानापन्न सहायक मिर्बिलियन स्टाफ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं :—

- (क) एन० डी० सनूजा 18-06-90 से 31-08-90
- (ख) श्री एस० के० सैनी 02-07-90 से 31-08-90
- (ग) श्री सत्यदेव 02-07-90 से 07-09-90

टी० एम० स्याल  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

(थल सेवा विभाग)

सं० 1386, दिनांक 29-8-90—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन से मेजर

एस० सी० शर्मा (आई० सी०-35320), आर० के० पांडे (आई० सी०-35321) इनफैंट्री, तेजिन्द्र सिंह (आई० सी०-35327) आरटी०, बी० एन० एम० कुमार (आई० सी०-35328), अनिल भाटिया (आई० सी०-35329), इनफैंट्री, एस० के० तनेजा (आई० सी०-35330) आरटी०, पी० के० कोशल (आई० सी०-35332) इनफैंट्री, एम० एन० राव (आई० सी०-35333) ए० सी०, दलजिन्द्र सिंह (आई० सी०-35335), के० वास (आई० सी०-35336) इनफैंट्री, के० रजामनी (आई० सी०-35338) ए० सी०, जी० पी० काले (आई० सी०-35339), बी० एन० पी० चन्द्रन (आई० सी०-35340) इनफैंट्री, डी० एस० संजू (आई० सी०-35342) इनफैंट्री, जे० एन० उपाध्याय (आई० सी०-35343) इंजीनियर्स, अशोक कुमार (आई० सी०-35344) ए० प्रो० सी०, बलजीत सिंह (आई० सी०-35345) ए० सी०, अनिल कुमार वैद्य (आई० सी०-35346), एन० के० एम० भटनागर (आई० सी०-35347) इनफैंट्री—10 जून 89।

एस० डी० गुरुंग (आई० सी०-35325) आरटी० 10 जून 89 (वेतन और भत्ते के लिए 04 सितम्बर 89)।

कैप्टन से मेजर

टी० एम० शर्मा (आई० सी०-27008) इनफैंट्री—31 जुलाई 84 (वेतन और भत्ते के लिए 4 फरवरी 85)।

आर० के० सिधई (आई० सी०-39029) ई० एम० ई०, रविन्द्रा कुमार (आई० सी०-39031) ई० एम० ई०, एम० के० रेवा (आई० सी०-39034), नरेण चन्द्र (आई० सी०-39038), राजिन्द्र कुमार (आई० सी०-39040) इंजीनियर्स, बी० के० शर्मा (आई० सी०-39041), जे० पी० माहू (आई० सी०-39044) ई० एम० ई०, प्रमोद शर्मा (आई० सी०-39045) इंजीनियर्स, सुनील शंगलू (आई० सी०-39047) ई० एम० ई०, अशवनी कुमार (आई० सी०-39049), ए० के० नन्दा (आई० सी०-39052) ई० एम० ई०, बीबाशिश मजूमदार (आई० सी०-39058) ई० एम० ई०—11 जून 89।

एम० एस० कटी (आई० सी०-39048), रूपिन्द्र सिंह (आई० सी०-39055), अमिनाथ कुमार (आई० सी०-39057) इंजीनियर्स—11 जून 89। (वेतन और भत्ते के लिए 04 सितम्बर 89)।

नरिन्द्र सिंह (आई०सी०-35108) इजीनियर्स, राजीव बी० कान्तिकर (आई०सी०-35109) ए०सी०, आर०के० सिंह (आई०सी०-35111) इनफेंट्री, एस० सिरीषर (आई०सी०-35112) ए० सी०, एच० एस० नंदरा (आई०सी०-35113) ई० एम० ई०, देवेन्द्रा कपूर (आई०सी०-35114), जगदीश सिंह (आई०सी०-35115), दीपक महता (आई०सी०-35116), रनजीत सिंह मिनहस (आई०सी०-35119) इन्फेंट्री, एम० के० बाबा (आई०सी०-35120), गोविन्द सिंह (आई०सी०-35121) ए० सी०, बी०एम० चोहान आई०सी०-35122) इन्फेंट्री पी० एम० केरीअपा (आई०सी०-35124) मिग्नलस, एम० एन० पुनोत्तमा (आई०सी०-35125), दिनेश मयाल (आई०सी०-35126) आरटी०, आई० जे० करेसदो (आई०सी०-35129) इनफेंट्री, ए० एस० चोषरी आई०सी०-35131) ए०सी०, जी० शंकरानारायनन (आई०सी०-35130) इनफेंट्री, नरजीत सिंह (आई०सी०-35133) ए०सी०—10 जून 89।

वाई० के० माथुर (आई०सी०-37232) आरटी०, प्रो० पी० यावव (आई०सी०-37233), राज कुमार (आई०सी०-37234), जय प्रकाश (आई०सी०-37236) इनफेंट्री, एम० अरुमगम (आई०सी०-37237) इजीनियर्स, वार्ड० के० पुरी (आई०सी०-37240) ए०सी०, जगदीश चन्द्र (आई०सी०-37241), के० एस० राना (आई०सी०-37242) इनफेंट्री, जे० फरीदरिफ (आई०सी०-37243) आरटी०, राजन कुलकरनी (आई०सी०-37245) इनफेंट्री, बी० संथानम (आई०सी०-37246) आरटी०, के०एन० गणपति (आई०सी०-37249) इनफेंट्री, के० आर० मसी कुमार (आई०सी०-37254) आरटी०, आशिष बास (आई०सी०-37255), आर०एम० मनराल (आई०सी०-37256) इनफेंट्री, बी०सी० बरगेन (आई०सी०-37258), संदीप कुमार (आई०सी०-37259) इजीनियर्स, विनेश कुमार (आई०सी०-37260) आरटी०, एम० एम० सामरा (आई०सी०-37261) इनफेंट्री, पी० के० जप्पल (आई०सी०-37264) ए० सी०, के० मोहन दामन (आई०सी०-37265) आरटी०, ए० के० दीक्षित (आई०सी०-37266) ए०प्रो०सी०—16 नवम्बर 89।

बलबीर सिंह कोचर (आई०सी०-35269) आरटी०, पी० के० जाम्ब (आई०सी०-35270) ए०प्रो०सी०, अनिल सूद (आई०सी०-35271) ई० एम० ई०, जी०बी० बरियर (आई० सी०-35273) ए० सी०, विनोद कुमार (आई०सी०-35274) इनफेंट्री, आर०के० अग्निहोत्री (आई०सी०-35276) आरटी०, डी० के० राय (आई०सी०-35277), एच०डी० रेडकार (आई०सी०-35278), एस०एम० राठौर (आई०सी०-35280) इनफेंट्री, सी०बी०एस० राठौर (आई०सी०-35281) ए०सी०, आर०एस० रणदीप (आई०सी०-35283), इन्ट० विकास जोशी (आई०सी०-35284) आरटी०, पी० के० सोडी (आई०सी०-35285) ए०एस०सी०, दीपक महरोत्रा (आई० सी०-35286) इनफेंट्री, एस० एस० डिनडसा (आई०सी०-35287) आरटी०, एम० एस० मोहन (आई०सी०-35291), श्याम सिंह (आई०सी०-35292) ए०सी०, के० एफ० डी० लिमा (आई०सी०-35293) इनफेंट्री, बी० जी० रावन (आई०सी०-35294) ए० प्रो० सी०—10 जून 89।

जी० एस० खेरा (आई०सी०-35289) ए०एस०सी०—10 जून 89 (वेतन और भत्ते के लिए 04 सितम्बर 89)।

वाई० एस० चौहान (आई०सी०-37107) इनफेंट्री, बहादुर सिंह (आई०सी०-37108) ए०एम०सी०, ए० के० सिन्हा (आई०सी०-37110), राय सिंह (आई०सी०-37112), प्रवीण चन्द्रा (आई०सी०-37113) इनफेंट्री, के०एम० गेववाल (आई०सी०-37114)

ए० प्रो०सी०, एम०पी० शर्मा। (आई०सी०-37119), ए० के० चन्व (आई०सी०-37120) आरटी०, गुरला मयम (आई०सी०-37122), आर०एम० कविदान (आई०सी०-37123), एम०एम० रेखी (आई०सी०-37124), राजेश्वर शर्मा (आई०सी०-37125), रघुवीर सिंह (आई०सी०-3712) इनफेंट्री, एम० आर० नाथ (आई०सी०-37130) इजीनियर्स, एन० के० ब्रह्मी (आई०सी०-37132) आरटी०, बी० जी० मुन्दरा बेलू (आई०सी०-37134) इनफेंट्री, मुनील शर्मा (आई०सी०-37135) सिग्नलस, हरमुख सिंह पाव (आई०सी०-37136) ए०सी०, एस० एम० गिव (आई०सी०-37138) इनफेंट्री, एम० के० गुप्ता (आई०सी०-37141) इनफेंट्री, इन्द्रपाल कोहली (आई०सी०-37145) ए० एस०सी०, एम०एस० मान (आई०सी०-37146) मक इनफेंट्री, जे० आर० शर्मा (आई०सी०-37147) आरटी०, एम०एम० प्रकाश (आई०सी०-37148) ए०प्रो०सी०—01 मई 89।

आर० के० शर्मा (आई०सी०-37045) मक इनफेंट्री, डी० के० थपलियाल (आई०सी०-37046) इनफेंट्री, राकेश ब्रह्मी (आई०सी०-37047) ए० सी०, के० एस० राठौर (आई०सी०-37049) इनफेंट्री, एम० पी० एम० मैनी (आई०सी०-37051), जी० के० मैवीरता (आई०सी०-37050) आरटी०, आर० के० सिंह (आई०सी०-37053) मक इनफेंट्री, आर० एन० जी० वसतीवर (आई० सी०-37055) मक इनफेंट्री, एच० आर० लिबारी (आई० सी०-37058), बी० एन० तोरेंस (आई०सी०-37059), भारत मुखण (आई०सी०-37060) आरटी०, एम० ए० अली (आई०सी०-37061), सज्जन लाल (आई०सी०-37063) इनफेंट्री, पी० एस० मेहरा (आई०सी०-37064) ए० एम० सी०, सभय सिंह (आई०सी०-37065) इनफेंट्री, जे० एम० रेना (आई०सी०-37068) इनफेंट्री, आर० के० शाह (आई०सी०-37070) इनफेंट्री, भगवान सिंह (आई०सी०-37071) मिग्नलस, डी० सूत्रा एम० जे० (आई०सी०-37072) इनफेंट्री, एम० एम० खोला (आई०सी०-37073) आरटी०—01 मई 89।

अश्वनी शर्मा (आई०सी०-37078), रवी कान्त दीवान (आई०सी०-37081) इनफेंट्री, रविन्द्र सिंह (आई०सी०-37082) ए०सी०, बी०एम० रियार (आई०सी०-37085) आरटी०, के० पी० एस० हंसपाव (आई०सी०-37088), अनूप यावव (आई०सी०-37089) आरटी०, सी० एम० राठौर (आई०सी०-37090) इनफेंट्री, ऐदान सिंह (आई०सी०-37091) ए०एस०सी०, वी०डब्ल्यू० वैद्य (आई०सी०-37092), कंवर मनमेष सिंह (आई०सी०-37093), जी० पी० एस० कताल (आई०सी०-37095), अरुण गुप्ता (आई०सी०-37096) इनफेंट्री, एम० परमेश्वरन (आई०सी०-37097), हरी शैव वैद्य (आई०सी०-37098), रजिन्द्र सिंह (आई०सी०-37099), सुरिन्द्र पाल सिंह (आई०सी०-37100) आरटी०, कुलविन्द्र सिंह (आई०सी०-37102), आरटी०, आर०एम० बूच (आई०सी०-37103) इनफेंट्री—01 मई 89।

राकेश बंसि (आई०सी०-35134) इजीनियर्स, राजन प्रभाकर (आई०सी०-35135) मिग्नलस, डी०एस० नेगी (आई०सी०-35136), पी० एम० हरिप्र (आई०सी०-35137) इनफेंट्री, राकेश महता (आई०सी०-35139), इनफेंट्री, बी०सी० सरमा (आई०सी०-35140) इनफेंट्री, टी०एस० वत्ता (आई०सी०-35141), राहुल गुप्ता (आई०सी०-35142), राकेश भाटिया (आई०सी०-35143) आरटी०, जे० एम० मथारू (आई०सी०-35145) ई० एम० ई०, रूप चन्व जसवाल (आई०सी०-35146) ए०प्रो०सी०, एस०के० छाबरा (आई०सी०-35147) ए०सी०, डी० एस० गवांडे (आई०सी०-35148) आरटी०, अशोक कुमार (आई०सी०-35149) इनफेंट्री, नीरज पाठक (आई०सी०-35150) ए०सी०, एस०एस० रुतेला (आई०सी०-35151) इनफेंट्री, वरुण नायर (आई०सी०-35152), ए०सी०, बी०आर०आर० पिनेय (आई०सी०-35154) इनफेंट्री, जी०एस० लिबाना (आई०सी०-35155) आरटी०, अनिल शर्मा (आई०सी०-35157) इनफेंट्री, आर०एस०

चौहान (आई०सी०-35159) इनकेंद्री, ए०के० सिवाच (आई०सी०-35160) इनकेंद्री-10 जून 89।

जयपाल सिंह (आई०सी०-35549) आरटी०, संजीव गुक्ला (आई०सी०-35550), ए०सी०, प्रावीण भुटानी (आई०सी०-35551) इंजीनियर्स, सुनील शर्मा (आई०सी०-35553) इनकेंद्री, रवीन्द्र सिंह (आई०सी०-35554) आरटी०, कमला कानिया (आई०सी०-35555) इनकेंद्री, आई०एस० सन्धु (आई०सी०-35556) ए०ओ०सी०, रोहिताश जेतले (आई०सी०-35557), मुहम्मद सफ़्जद (आई०सी०-35558) इनकेंद्री, हरिन्द्र बेनोट (आई०सी०-35559) ई० एम०ई०, ज्योतिरमोय गोपाल (आई०सी०-35560) इनकेंद्री, संजय शर्मा (आई०सी०-35561) सिग्नेस, त्रिनीप कुमार (आई०सी०-35562) आरटी०, बी० के० जैन (आई०सी०-35563), बलवान सिंह (आई०सी०-35564) इनकेंद्री, के०एस०एन० सुकुमारन (आई०सी०-35565), एम० जे० मैथ्यू (आई०सी०-35566) आरटी०, के० आर० सिंह (आई०सी०-35568) ए०ओ०सी०, अजीत सिंह (आई०सी०-35569) इन्ट०, ए०के० अनुरादी (आई०सी०-35570) आरटी०, आर०एस० निरवान (आई०सी०-35572) इनकेंद्री, जे०एम० गिल (आई०सी०-35573) आरटी०-16 दिसम्बर 89।

प्रवीण चन्द कटोच (आई०सी०-35574) आरटी०, जे०एस० गोट (आई०सी०-35576) इनकेंद्री, शंकर कल्लट (आई०सी०-35577) आरटी०, धनजो जिन्दा (आई०सी०-35578), सतीश चंद्र (आई०सी०-35579), के०के०बी० गानबाग (आई०सी०-35580) इनकेंद्री, चन्द्रा प्रकाश (आई०सी०-35581) आरटी०, पी०एस० सन्धु (आई०सी०-35582) इनकेंद्री, बलश्रीत सिंह (आई०सी०-35583) ए०ओ०सी०, भूविन्द्र सिंह (आई०सी०-35586), बैयन परमार (आई०सी०-35587), आर०सी० सक्जानी (आई०सी०-35588) इनकेंद्री, डी०एस० ननुवा (आई०सी०-35589), रमजोर बिहू मैटर्जी (आई०सी०-35590) आरटी०, गुरविन्द्र सिंह (आई०सी०-35592) आरटी०, दीपक कान्ति दास (आई०सी०-35594), एन० एन० होरा (आई०सी०-35595), डी० के० नन्दा (आई०सी०-35596) आरटी०, एस०एस० गुंडेवर (आई०सी०-35597) इनकेंद्री-16 दिसम्बर 89।

ए० के० बाही (आई०सी०-39398) इंजीनियर्स, बी०बी० एल० पापुरी (आई०सी०-39400) ई०एम०ई०, जो०के०जी० कछु (आई०सी०-39401) इंजीनियर्स, विक्रम सिंह (आई०सी०-39402) ई०एम०ई०, दीपक गुप्ता (आई०सी०-39403) इंजीनियर्स, आर०पी० मुख (आई०सी०-39406) इंजीनियर्स, एच०के० सेमवाल (आई०सी०-39408) इंजीनियर्स, देवचन पण्डित (आई०सी०-39411) इंजीनियर्स ए०पी० चौधरी (आई०सी०-39412) ई०एम०ई०, पी०सी० पांडुरंगी (आई०सी०-39414) इंजीनियर्स, एस०के० शर्मा (आई०सी०-39416) सिग्नेस, बी०पी० शर्मा (आई०सी०-39419) ई०एम०ई०, चन्द्राकान्त टी०एम० (आई०सी०-39422) इंजीनियर्स, के०एस० सिंह (आई०सी०-39426) ई०एम०ई०, एम०सी० गुप्ता (आई०सी०-39429) इंजीनियर्स-17 दिसम्बर 89।

के०एस० चौधरी (आई०सी०-35520) इनकेंद्री, संजय सरन (आई०सी०-35521), एन० पी० रारीलाल (आई०सी०-35522) आरटी०, टी०एस० चिन्डसा (आई०सी०-35523) इनकेंद्री, अमरेन्द्रा सिन्हा (आई०सी०-35524) यू०सी०, यू०सी०एस० रावत (आई०सी०-35525), पी०एस० बसेरा (आई०सी०-35526) इनकेंद्री, बी०के० यादव (आई०सी०-35527), उज्जगर सिंह (आई०सी०-35528), भोमवमणू-समसन (आई०सी०-35529) आरटी०, पी०के० तमंग (आई०सी०-35531) इनकेंद्री, जी०एस० रीन (आई०सी०-35532) आरटी०, प्रावीण बन्शी (आई०सी०-35533), जे०एल० टोडकर (आई०

सी०-35535), ए०के० एन० विरीधरण (आई०सी०-35536) इनकेंद्री, जी० बरखाराजुलू (आई०सी०-35537) आरटी०, सीरज बाली (आई०सी०-35538) इनकेंद्री, बी०के० पाठक (आई०सी०-35541) आरटी०, बो०बी० पुरंग (आई०सी०-35542) इनकेंद्री, टी०के० भुक्जी (आई०सी०-35543) आरटी०, आर०पी० नायकावडे (आई०सी०-35546) इनकेंद्री, एस० के० सामरारी (आई०सी०-35548) आरटी० 16 दिसम्बर 89।

ओ०पी० यादव (आई०सी०-35539) ए०ओ० सी०, आई०एस० नेनस (आई०सी०-35540) इनकेंद्री-16 दिसम्बर 89।

संवीप कुमार (आई०सी०-35468), परीन्द्र सिंह राय (आई०सी०-35469) इनकेंद्री, अमिताबा कुम्हू (आई०सी०-35470) ए० सी०, बिपिन रावत (आई०सी०-35471), एम०एम० शुक्ला (आई०सी०-35474), अश्वतार सिंह (आई०सी०-35476), जे०एस० शर्मा (आई०सी०-35477) इनकेंद्री, बी०एस० तरेहान (आई०सी०-35478) ए०सी०, बी०एस० नेगी (आई०सी०-35479), सुरिन्द्र सिंह (आई०सी०-35480) इनकेंद्री, राजीव नारायणन (आई०सी०-35481) ए० सी०, गालेन्द्रा कोशिक (आई०सी०-35482) इंजीनियर्स, संजीव कुमार (आई०सी०-35483) इनकेंद्री, राजीव तलवार (आई०सी०-35485) ए०सी०, एम०पी०एस० हीरा (आई०सी०-35487) इनकेंद्री, राजीव गोपालकृष्णन (आई०सी०-35488) आरटी०, पी०एस० बाबल (आई०सी०-35489) इनकेंद्री, एन०पी० मुरलीधरन (आई०सी०-35490) सिग्नेस, पी० एस० मेहला (आई०सी०-35491) ए०एस०सी०, डी०ए० पाटिल (आई०सी०-35492) इनकेंद्री, सुभता साह (आई०सी०-35494)-16 दिसम्बर 89।

मुन्नापुली सुवर्णन (आई०सी०-35762) इनकेंद्री, आर० के० विन्हा (आई०सी०-35763) आरटी०, पी०के० मरकार (आई०सी०-35765) इनकेंद्री, एम०आई०एन० चोहान (आई०सी०-35766) इनकेंद्री, पी०बी० मूर्ती (आई०सी०-35767) ए०ओ०सी०, ए०के० शर्मा (आई०सी०-35768) आरटी०, मनोज गुप्ता (आई०सी०-35770) ए०ओ०सी०, अशोक कलीफतन (आई०सी०-35772) इनकेंद्री, एन०के० सुरेश (आई०सी०-35775) आरटी०, एच० के० वैद्य (आई०सी०-35776) इनकेंद्री, शविन्द्र सिंह (आई०सी०-35778) आरटी०, तुम्बना अमरनाथ (आई०सी०-35779) आरटी०, विजय कुमार (आई०सी०-35780) इनकेंद्री, आनन्द बसेरा (आई०सी०-35781) इनकेंद्री, अत्रेय मीनी (आई०सी०-35782) इनकेंद्री, वेनकटरामन मीनासी-मुन्दरम (आई०सी०-35785) इन्ट० अग्र यादव (आई०सी०-35787) इनकेंद्री, के०आर० सिंह (आई०सी०-35788) आरटी०, रणजीत सिंह (आई०सी०-35789) ए०ई०सी०-16 दिसम्बर 89।

आर०एस० खतरी (आई०सी०-35801), पी० बडाकुमरानी (आई०सी०-35810), जे०एम० शर्मा (आई०सी०-35812), पी० चक्रवर्ती (आई०सी०-35833), बी० वासकरन (आई०सी०-35853), राजिन्द्र सिंह नेहरा (आई०सी०-35865) ए०ई०सी०, सी०एस० नायर (आई०सी०-35874) जे०एस०सी०-16 दिसम्बर 89।

सत्यानारायणन यादव (आई०सी०-35496), जे०एस० सूर (आई०सी०-35497) आरटी०, एम०आर० बाबू (आई०सी०-35499) इनकेंद्री, ए०एस० कर्नसोत (आई०सी०-35500) आरटी०, के०ए० मुधाना (आई०सी०-35501) ए०एस० पठानिया (आई०सी०-35502) इनकेंद्री, एम०एम० वायरे (आई०सी०-35503) ई० एम० ई०, नोरज मिश्रा (आई०सी०-35504) आरटी०, ए०आर० कृष्णा (आई०सी०-35505) इंजीनियर्स, अनुज नेहरा (आई०सी०-35506) सिग्नेस, पी०एस० मेहता (आई०सी०-35507) ए०सी०, आर० के० जखर (आई०सी०-35508), जे० पी० धिखनगवन (आई०सी०-35509) इनकेंद्री, डी०के० नंबा (आई०सी०-35510) ए०एस०सी०, भारत पूरण (आई०सी०-35511) इनकेंद्री, जयरज अजारिया (आई०सी०-35512), कुलकर्त सिंह (आई०सी०-35513), बी० के० मवान

(आई०सी०-35514) आरटी०, वी०एस० वास (आई०सी०-35515) नरत निहार (आई०सी०-35516) हाफेंद्रो, संतोष सिंह (आई०सी०-35517) ए०एस०, सुधीर निहा (आई०सी०-35518) ए०सी०, शोभी टोप (आई०सी०-35519) हाफेंद्रो-16 दिसम्बर 89।

ए०एस० ए० मूर्ती (एम०एल०-2330), ए०आर० कटांक (एम०एल०-2332), पी०एन० शर्मा (एम०एल०-2333), आर०के० घोषे (एम०एल०-2334), दलीप सिंह (एम०एल०-2336)—30 जुलाई 89।

एम मुनिवाही (एम०एल०-2325)—04 अगस्त 89।

पी०के० मुरलीधर (एम०एल०-2742)—13 जून 89।

आई०ए० गुलरिया (एम०एल०-2298), ए०एस० संघु (एम०एल०-2300), जी० पी० बर्यवाल (एम०एल०-2302), ए०एस० सिंह (एम०एल०-2303), बी०डी० सिधा (एम०एल०-2304), पी०ए० नाथर (एम०एल०-2305), आरम सिंह (एम०एल०-2312), जे०डी० अणेह (एम०एल०-2313), ए०एस० मान (एम०एल०-2314), आई०जे० सिंह (एम०एल०-2315), जोया सिंह (एम०एल०-2319), ए० घन (एम०एल०-2320), मुञ्जीतियार सिंह (एम०एल०-2322), वारा सिंह (एम०एल०-2316), कमवीर सिंह (एम०एल०-2318), पी०के० नारायणन (एम०एल०-2324), पी० के० आर० कृष्णन (एम०एल०-2326), पी० स्वामीदासन (एम०एल०-2327), बाबू सिंह (एम०एल०-2329)—30 जुलाई 89।

दिनेश तनवार (आई०सी०-35656) इनफेंद्रो, राजीव सूद (आई०सी०-35657) सिग्नलम, के०डी० पेनदहूरवार (आई०सी०-35658) इन्ड, शो०एस० मैनी (आई०सी०-35659) आरटी०, मथन गांधी (आई०सी०-35660) आर्टी (एम०ई०-रोमेल (आई०सी०-35661) इन्फेंद्रो, सुधीर न्गेनिया (आई०सी०-35662) इंजीनियरिंग, ए०एम० सावंत (आई०सी०-35663) ए०सी०, अनिल बध्या (आई०सी०-35664) ए०एस०, जयन्त कृष्णा (आई०सी०-35665) इनफेंद्रो, गौतम कार (आई०सी०-35667) आर्टी, आणुतोष मिश्रा (आई०सी०-35668) ए०सी०, ए०सी० पोन्नप्पा (आई०सी०-35669) इनफेंद्रो, सेधिन ब्रह्मरासी (आई०सी०-35670) आर्टी समसन तिवारी (आई०सी०-35671) ई० एम०ई०, सुरिन्द्र सिंह (आई०सी०-35672) आर्टी, कन्नन दोवी (आई०सी०-35673) सिग्नलम, जी० के० एम० कुमार (आई०सी०-35674) इनफेंद्रो, ए०सी० खन्ना (आई०सी०-35675) इंजीनियरिंग ए० एम० द्राविड (आई०सी०-35676) सिग्नलम ए०जे० मिह (आई०सी०-35677) आर्टी, बलदेव सिंह (आई०सी०-35680) इनफेंद्रो—16 दिसम्बर 89।

एस० डी० भंडारे (आई०सी०-35681) आर्टी, के०एस० जोस (आई०सी०-35682), बलजीत सिंह (आई०सी०-35683), सनदेस (आई०सी०-35684) इनफेंद्रो, ए०एस० नेषी (आई०सी०-35686) पायनियर, ए०डी० कोबलाकेत (आई०सी०-35687) ए०एस०, अर्जुन गुप्ता (आई०सी०-35688) इनफेंद्रो, राजीव कपूर (आई०सी०-35689) आर्टी, संजय चौधरी (आई०सी०-35690) इनफेंद्रो, अमिन्द्र जोहर (आई०सी०-35693) ए०सी०, अरुण कोटनाला (आई०सी०-35695), प्रीतद्वन्द सिंह (आई०सी०-35697), मनोवेन्द्रा राय (आई०सी०-35699) इनफेंद्रो, दिनेश मलहोत्रा (आई०सी०-35700) आर्टी, डी० डी० देसवाल (आई०सी०-35701) ए०एस०, कृष्णा मेनम एम० (आई०सी०-35702) आर्टी, ए०पी०सी० राव (आई०सी०-35703) इन्ड, विरेन्द्रा कुमार (आई०सी०-35705) ए० एस०, एस०एस० सिरौही (आई०सी०-35786) ए०एस०, ए०एस० योगेश (आई०सी०-35708) इनफेंद्रो—16 दिसम्बर 89।

के० सुब्रामनियन (एम०एल०-2270), के०आर० सालुके (एम०एल०-2271), के० परमसिखम (एम०एल०-2272), कुलबन्त सिंह

(एम०एल०-2274), जे०एम० चिमा (एम०एल०-2279), भारत सिंह (एम०एल०-2281), जी०आर० चौकन (एम०एल०-2283), शो०एस० भागवत (एम०एल०-2284), आर०एम० शर्मा (एम०एल०-2285), गुरुनारायण सिंह (एम०एल०-2286) शानमुखम (एम०एल०-2287), ए०एस० खन्ना, (एम०एल०-2288), रतन सिंह (एम०एल०-2289) बी०एम० सोहल (एम०एल०-2291) प्रियी सिंह (एम०एल०-2293), ए०एस० राणा (एम०एल०-2294), पी० एस० मलहन (एम०एल०-2295) गुरुचरत सिंह (एम०एल०-2297)—30 जुलाई 89।

जी० शंकरन (आई०सी०-36062) आरटी० 09 जुलाई 86 प्रौर मन्वीर सिंह (आई०सी०-36116) इनफेंद्रो 09 जुलाई 86 (बेतन श्रोत भन्ते के लिए 22 मई 89)।

पी०एम० शोखावत (आई०सी०-37201) ए०एस०, के०सी० पंत (आई०सी०-37202), बी० के० शर्मा (आई०सी०-37203), बीनोय पूनन (आई०सी०-37204) इनफेंद्रो, ए० ए० चौधरी (आई०सी०-37205) आरटी०, माम चन्द चोहान (आई०सी०-37209) ए०एस०, सतीश पदभानभ (आई०सी०-37210), रविन्द्र कुमार इडवाल (आई०सी०-37211) इनफेंद्रो, ए० जे० सोमंकी (आई०सी०-37212) सिग्नलम, टी०पी० सिंह (आई०सी०-37213) ए० सी०, ए०बी० स्वामीनाथन (आई०सी०-37214) आरटी०, ए० के० मिह (आई०सी०-37215), आई० एस० अनडोत्रा (आई०सी०-37216) इनफेंद्रो, उत्तम सिंह (आई०सी०-37220), रोमी सेखरिया (आई०सी०-37222) इनफेंद्रो, सी० आर० देवनाथन (आई०सी०-37226) इंजीनियरिंग, सुधीर चावला (आई०सी०-37227) इनफेंद्रो, ए० के० शर्मा (आई०सी०-37230) इनफेंद्रो, पी०एस० संघु (आई०सी०-37331) ए०एस०—16 नवम्बर 89।

आर० के० मन्वुकर (आई०सी०-35161), के० के० शर्मा (आई०सी०-35162) इनफेंद्रो, ए० के० अनेजा (आई०सी०-35163) ई० एम० ई०, आर०पी० लोबो (आई०सी०-35164) इनफेंद्रो, बी०एस० किट (आई०सी०-35165) आरटी०, टी०जी० माथुर (आई०सी०-35166) ए०सी०, यशवंत सिंह (आई०सी०-35167) ई० एम०ई०, ए०एस० के० सिन्हा (आई०सी०-35168) आरटी०, आर० ई० कोशी (आई०सी०-35170) इंजीनियरिंग, रजवीर सिंह (आई०सी०-35171), मंजीव भन्वा (आई०सी०-35172), आर० जे० बरोना (आई०सी०-35173) इनफेंद्रो, रंजीव जोनेजा (आई०सी०-35174) सिग्नलम, रंजीव टंडन (आई०सी०-35176) ए०सी०, बी०एस० निभ (आई०सी०-35177) इनफेंद्रो आर०एस० शिलर (आई०सी०-35178) ए० एस०, अब्दुल गुप्ता (आई०सी०-35179) आरटी०, ए०एस० चक्रवर्ती (आई०सी०-35181) आरटी०, ए०बी० गारडे (आई०सी०-35182), कुन्दरी सिंह (आई०सी०-35183) इनफेंद्रो, बी०एस० राठौर (आई०सी०-35184), ए०एस० मलिक (आई०सी०-35185) आरटी०, सी०एस० दयाल (आई०सी०-35186) इनफेंद्रो—10 जून 89।

के० योग (आई०सी०-35736) आर्टी, सुनील बसपुरे (आई०सी०-35738), सुप्रभात सिंह (आई०सी०-35739), आर०बी० कोशिक (आई०सी०-35740), पी०डी० कर्की (आई०सी०-35742) इनफेंद्रो, जी०एम० राणा (आई०सी०-35744), राकेश दूबे (आई०सी०-35747), महेश कुमार (आई०सी०-35748) इनफेंद्रो, ए० आर० चौधरी (आई०सी०-35750), बी०एल० दाम (आई०सी०-35751) आर्टी, बी० एस० यादव (आई०सी०-35752) इनफेंद्रो, ए० ए० मोहन (आई०सी०-35755) ए० एस०, ए० के० श्रीवास्तवा (आई०सी०-35756) इनफेंद्रो, निरूपन चतुर्वेदी, (आई०सी०-35758) ए० सी०, सुधीर सूद (आई०सी०-35759) आर्टी, विवेकानन्द कोडीकल (आई०सी०-35761), इनफेंद्रो, 16 दिसम्बर 89।

सुनील कपूर (आई०सी०-35743) ए०सी०—16 दिसम्बर 89।

ए० के० षोष (आई० सी०-35099) सिग्नल, 4 सितम्बर, 1987।  
(वेतन और भत्ते के लिए 4 सितम्बर 89)।

नरिन्द्र कुमार (आई० सी०-35348), ए० एस० सी०, चरनजीत सिंह (आई० सी०-35350), यू० चेम्बथ (आई० सी०-35351), इन्फैंट्री, आर० डी० गुप्ते (आई० सी०-35355), ए० ओ० सी०, के० एस० बिष्ट (आई० सी०-35356), इन्फैंट्री, सी० एम० मल्होत्रा (आई० सी०-35357) ए० सी०, राकेश बिरमाना (आई० सी०-35360), इन्फैंट्री, आर० एम० बावन (आई० सी०-35361), आरटी०, एस० के० सिन्हा (आई० सी०-35364), इन्ट, राजीव जोहरी (आई० सी०-35365), पलव बिसाई (आई० सी०-35366), आरटी०, एम० गिरीधर (आई० सी०-35367), विनोद कुमार (आई० सी०-35368), इन्फैंट्री, ए० पी० सिंह (आई० सी०-35371) ए० ओ० सी०, हरिन्द्र सिंह साहू (आई० सी०-35373), पी० मनहोत्रा (आई० सी०-35375) इन्फैंट्री, गीतम देव (आई० सी०-35376) इन्ट, टी० आर० षोपड़ा (आई० सी०-35382) आर० टी०, आर० एस० राजपूत (आई० सी०-35383) ए० सी०, एस० एन० मुहम्मद (आई० सी०-35385) ए० सी०, 10 जून, 89।

सुरेश शर्मा (आई० सी०-35363) आरटी०, अजय बूखे (आई० सी०-35381), इन्फैंट्री, पी० एस० बडवाल (आई० सी०-35384) ए० एस० सी०, 10 जून 89 (वेतन और भत्ते के लिए 4 सितम्बर 89)।

सुरेन्द्र कुमार (आई० सी०-35709), इन्फैंट्री, मचीन खुल्लर (आई० सी०-35711), ए० सी० जोसफ गिराल्ड (आई० सी०-35712), पाल जाज (आई० सी०-35713), गुरुवीप सिंह (आई० सी०-35714), बी० पी० के० पिल्ले (आई० सी०-35715), इन्फैंट्री, गोविन्दराजन सिरिनिवासन (आई० सी०-35719) आर्टी, नरिन्द्र सिंह (आई० सी०-35719) ए० एस० सी०, एन० के० साधु (आई० सी०-35720) आर्टी, राघवन विनोद कुमार (आई० सी०-35721) इन्फैंट्री, अजोय षटोपाध्याय (आई० सी०-35723), इन्ट, एम० एस० सन्धु (आई० सी०-35724) इन्फैंट्री, के० पी० रवीन्द्रन (आई० सी०-35725), ए० ओ० सी०, मत्वनरायना मिस्ता (आई० सी०-35726) आर्टी, सुधीर सिंह (आई० सी०-35727) इन्फैंट्री, वेदाकेदाथ रवि (आई० सी०-35728), एम० के० बासू (आई० सी०-35729), आर० टी०, जमीकृष्णन नायर (आई० सी०-35730) ए० सी०, टी० एम० सुभरामनियन (आई० सी०-35732) इन्फैंट्री, आर० एस० डागर (आई० सी०-35733) आरटी०, वी० टी० जेथीयर (आई० सी०-35734) इन्फैंट्री, 16 दिसम्बर, 1989।

आर० सी० मैथ्यू (आई० सी०-38598) ई० एम० ई०, 22 दिसम्बर 1988।

बी० विनेपाल (आई० सी०-36825) आर० टी०, 20 अप्रैल 88।  
(वेतन और भत्ते के लिए 22 मई 89)

बिजसोहन (आई० सी०-37094) इन्फैंट्री, शास्कर राय (आई० सी०-37074) ई० एम० ई०, आर० पी० नायर, (आई० सी०-37140) आर्टी, 1 मई 89)।

(वेतन और भत्ते के लिए 4 सितम्बर 89)।

वाई० सी० गुप्ता,  
लै० कर्मल,  
ए० एम० एस० 8

सं० 1387, दिनांक 28 सितम्बर, 1990—राष्ट्रपति महर्षि निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कर्मचारी

कप्तान से मेजर के पद पर

ए० के० भण्जारी (एम० आर०-04168 के०) सैनिक डाक्टरी कोर, 26 जनवरी, 1986।

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1987 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 2291, दिनांक 20 अक्टूबर, का सम्बन्ध जहाँ तक उपरोक्त अधिकारी से है वह किया जाता है।)

वाई० एस० गुवाटी (एम० आर०-05706 वाई०) सैनिक डाक्टरी कोर, 16 जून, 1990।

एस० चक्रवर्ती,  
मेजर जनरल डिप्टी महानिदेशक

(धनसेना विभाग)

संख्या 1388, दिनांक 11 सितम्बर, 1990—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

(नियमित सेना)

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार यकंपा शिगारी (जे० सी०-100770-एफ०), 1 जून, 1990।

सूबेदार इन्दर देव सिंह (जे० सी०-98755-एल०), 1 जून, 1990।

सूबेदार मुआ लाल (जे० सी०-100298-के०), 1 जुलाई, 1990।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजेश्वर (जे० सी०-104941-ए०), 5 दिसम्बर, 1989।

नायब सूबेदार मनोहर सिंह (जे० सी०-83593-एन०), 1 मार्च, 1990।

नायब सूबेदार टेक बहादुर क्षेत्री (जे० सी०-86694-एम०), 1 अप्रैल, 1990।

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह थापा (जे० सी०-65772-एल०), 1 अप्रैल, 1990।

नायब सूबेदार उत्तम चन्द (जे० सी०-85200-एल०), 13 अप्रैल, 1990।

नायब सूबेदार विशम्बर सिंह (जे० सी०-66197-एफ०), 1 मई, 1990।

नायब सूबेदार अवधेश बहादुर सिंह (जे० सी०-83903-एन०), 1 मई, 1990।

नायब सूबेदार रूप राम (जे० सी०-125058-एक्स०), 1 मई, 1990।

नायब सूबेदार हर सिंह (जे० सी०-125028-ए०), 1 मई, 1990।

नायब सूबेदार तुनसी राम (जे० सी०-128582-डब्ल्यू०), 1 मई, 1990।

नायब सूबेदार कोर्पाल सिंह सह्याल (जे० सी०-125052-डब्ल्यू०), 1 मई, 1990।

नायब सूबेदार छगन खाल (जे० सी०-72139-एन०) 1 मई 1990।  
 नायब सूबेदार धरम सिंह (जे० सी०-107687-एम०), 1 मई, 1990।  
 नायब सूबेदार मुग्गेश चन्ना (जे० सी०-127173-इन्फ्यू०), 1 मई, 1990।  
 नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जे० सी०-128588-एक्स०), 1 मई, 1990।  
 नायब सूबेदार छतर सिंह (जे० सी०-130124-वाई०), 1 मई, 1990।  
 नायब सूबेदार क्या नन्व (जे० सी०-125019-वाई०), 1 मई, 1990।  
 नायब सूबेदार नवल सिंह (जे० सी०-125038-के०), 1 मई, 1990।  
 नायब सूबेदार के० के० सुरेन्द्र (जे० सी०-49108-एफ०), 1 मई, 1990।  
 नायब सूबेदार सुकदेव अहिर (जे० सी०-125020-एन०), 26 मई, 1990।  
 नायब सूबेदार राम अवतार (जे० सी०-125017-एन०), 1 जून, 1990।  
 नायब सूबेदार बी० कसैया (जे० सी०-125056-एम०), 1 जून, 1990।  
 नायब सूबेदार बिरहम सिंह (जे० सी०-78380-इन्फ्यू०), 1 जून, 1990।  
 नायब सूबेदार राम सरन (जे० सी०-74032-एक्स०), 1 जून, 1990।  
 नायब सूबेदार जगत राम (जे० सी०-84464-ए०), 1 जून, 1990।  
 नायब सूबेदार बशम्बर दास धाखल (जे० सी०-91419-इन्फ्यू०), 1 जून, 1990।  
 नायब सूबेदार वकील सिंह (जे० सी०-95057-एक्स०), 1 जून, 1990।  
 नायब सूबेदार रत्न चन्द (जे० सी०-109176-एफ०), 1 जून, 1990।  
 नायब सूबेदार सकुत्तार सिंह (जे० सी०-82824-एम०), 1 जून, 1990।  
 नायब सूबेदार वामोवर राजगुरु (जे० सी०-125025-एम०), 1 जुलाई, 1990।  
 नायब सूबेदार केशवपाल सिंह (जे० सी०-127193-के०), 1 जुलाई, 1990।  
 नायब सूबेदार शिवप्रसाद (जे० सी०-128585-के०), 1 जुलाई, 1990।  
 नायब सूबेदार दुख हरन राम (जे० सी०-127190-इन्फ्यू०), 1 जुलाई, 1990।  
 नायब सूबेदार समय सिंह (जे० सी०-127188-वाई०), 1 जुलाई, 1990।  
 नायब सूबेदार रत्न सिंह (जे० सी०-137163-ए०), 1 जुलाई, 1990।  
 नायब सूबेदार अत्तर सिंह (जे० सी०-129511-एफ०), 1 जुलाई, 1990।

नायब सूबेदार दिवान सिंह (जे० सी०-130130-एम०), 1 जुलाई, 1990।

#### तोपखाना रेजिमेन्ट

मन्मटेन्टिब सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०/एस० के० टी०) के पद में

सूबेदार महेश राम (जे० सी०-105197-ए०), 1 अगस्त, 1990।

मन्मटेन्टिब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०/एस० के० टी०) के पद में

नायब सूबेदार मुन्गा सिंह (जे० सी०-143874 इन्फ्यू०), 1 अगस्त, 1990।

नायब सूबेदार करन सिंह (जे० सी०-136792-ए०), 1 अगस्त, 1990।

नायब सूबेदार श्रींकार नारायन (जे० सी०-143873-ए०), 1 अगस्त, 1990।

नायब सूबेदार बिहारी लाल (जे० सी०-144757-एक्स०), 1 अगस्त, 1990।

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जे० सी०-144758 ए०), 1 अगस्त 1990।

नायब सूबेदार के० सिवानन्दन (जे० सी०-144759-ए०), 1 अगस्त, 1990।

नायब सूबेदार नाडकम भास्करन (जे० सी०-143899-ए०), 1 अगस्त, 1990।

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जे० सी०-143870-ए०), 1 अगस्त, 1990।

नायब सूबेदार केवल सिंह (जे० सी०-144274-ए०), 1 अगस्त, 1990।

नायब सूबेदार राम कुमार राम (जे० सी०-146720-पी०), 1 अगस्त, 1990।

टी० बी० नायर,  
डेस्क अधिकारी

सं० 1389, दिनांक 20 सितम्बर, 1990—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैंट्री

लहाख स्काउट्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लोटम जिकमव (9920825-ए० अब जे० सी०-196707 एफ०), 1 सितम्बर, 1989।

हवलदार नवेरिंग वांगचुस (9920988 के० अब जे० सी०-196708-के०), 1 सितम्बर, 1989।

हवलदार छेरांग भुमप (9921268 पी० अब जे० सी०-196709 एम०), 10 फरवरी, 1990।

हवलदार फुन्योक दुन्हुप (9920844-एफ० अब जे० सी०-196710 एफ०), 1 सितम्बर, 1989\*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बेलम और मर्लों पर प्रभाव डाले बिना जेष्ठता 1 सितम्बर, 1989 से भी जाएगी)।

## 5 जी० आर० (एफ० एफ०)

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार खत्र बहादुर थापा (सं० 5442974 एच० अब जे० सी०—196688 एफ०), 30 दिसम्बर, 1989।

हवलदार मोहन मिह थापा (सं० 5443361 पी० अब जे० सी०—196689 के०), 30 दिसम्बर, 1989।

हवलदार राम बहादुर (सं० 5443507 एच० अब जे० सी०—196690 आई०), 30 दिसम्बर, 1989।

हवलदार काजीमान गुंरंग (सं० 5444287 एल० अब जे० सी०—196691 एफ०), 30 दिसम्बर, 1989।

हवलदार सुजा बहादुर गुंरंग (सं० 5443611 एल० अब जे० सी०—196692 के०), 30 दिसम्बर, 1989।

हवलदार धन बहादुर गुंरंग (सं० 5443873 एफ० अब जे० सी०—196682 ए०), 1 अक्टूबर, 1989।

हवलदार नन्दा बहादुर पुन (सं० 5443933 एल० अब जे० सी०—196683 एच०), 5 दिसम्बर, 1989\*।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना उपेक्षता 7 अक्टूबर 1989 से दी जायेगी)।

हवलदार सुक बहादुर गुंरंग (सं० 5443833 ए० अब जे० सी०—196684 एल०), 14 दिसम्बर, 1989\*\*।

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना उपेक्षता 1 नवम्बर, 1989 से दी जायेगी)।

हवलदार विल्ली राज छेत्री (सं० 5443942 एम० अब जे० सी०—196685 एन०), 1 नवम्बर, 1989।

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) ईश्वर मिह गुंरंग (सं० 5442846 पी० अब जे० सी०—196686 डब्ल्यू), 1 फरवरी, 1990।

हवलदार (लिपिक) पुरुषोत्तम दत्त भट (सं० 5442679 ए० अब जे० सी०—196687 आई०), 1 फरवरी, 1990।

## 8 जी० आर०

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) बन्ना राज (सं० 5743607 एफ० अब जे० सी०—196698 एल०), 1 नवम्बर, 1989।

हवलदार (लिपिक) गोपाल सिंग गुंरंग (सं० 5743654 आई० अब जे० सी०—196699 एन०), 1 दिसम्बर, 1989।

हवलदार (लिपिक) गणेश प्रसाद शर्मा (सं० 5743653 डब्ल्यू अब जे० सी०—196700 एक्स०), 1 दिसम्बर, 1989।

हवलदार (लिपिक) भूलन प्रसाद निशाद (सं० 5743703 डब्ल्यू अब जे० सी०—196701 ए०), 1 जनवरी, 1990।

हवलदार (लिपिक) रघुबीर सिंग चौहान (सं० 5743652 एन० अब जे० सी०—196702 ए०), 1 जनवरी, 1990।

हवलदार (लिपिक) शानकरन प्रसाद हरिजन (सं० 5743728 एच० अब जे० सी०—196703 एल०), 1 जनवरी, 1990।

हवलदार (लिपिक) पद्मवति प्रधान (सं० 5743737 के० अब जे० सी०—196704 एन०), 1 फरवरी, 1990।

हवलदार (लिपिक) सत राज यादव (सं० 5743784 एफ० अब जे० सी०—196705 डब्ल्यू०), 1 फरवरी, 1990।

हवलदार (लिपिक) गजेन्द्र सिंह थापा (सं० 5743896 एफ० अब जे० सी०—196706 आई०), 1 फरवरी, 1990।

## 5 जी० आर० (एफ० एफ०)

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) विजय कुमार मालीक (सं० 5442645 एम० अब जे० सी०—196693 एम०), 1 जनवरी, 1990।

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चन्द्र बहादुर आले (सं० 5443823 डब्ल्यू अब जे० सी०—196694 पी०), 1 नवम्बर, 1989।

हवलदार राजेन्द्र राज ठकुरी (सं० 5444151 एफ० अब जे० सी०—196695 एक्स०), 27 जनवरी, 1990।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना उपेक्षता 1 दिसम्बर, 1989 से दी जायेगी)।

हवलदार कीशना बहादुर आले (सं० 5444152 के० अब जे० सी०—196696 ए०), 1 दिसम्बर, 1989।

हवलदार हस्त बहादुर थापा (सं० 5444221 पी० अब जे० सी०—196697 एच०), 24 दिसम्बर, 1989।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना उपेक्षता 1 दिसम्बर, 1989 से दी जायेगी)।

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) विष्णू सिंह (सं० 5442668 एन० अब जे० सी०—196680 ए०), 23 दिसम्बर, 1989।

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गणेश बहादुर गुंरंग (सं० 5442718 एन० अब जे० सी०—196681 एक्स०), 3 फरवरी, 1990\*।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना उपेक्षता 1 जनवरी, 1990 से दी जायेगी)।

## 9 जी० आर०

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महेंद्र बहादुर क्षत्री (सं० 5841271 एच० अब जे० सी०—196678 एक्स०)—01 जनवरी 1990।

हवलदार मिन बहादुर खत्री (सं० 5841311 आई० अब जे० सी०—196679 ए०)—01 जनवरी 1990।

## 3 जी० आर०

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम भक्त गुंरंग (सं० 5240004 अब जे० सी०—196665 ए०—13 जनवरी 1990\*।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना उपेक्षता 01 दिसम्बर 1989 से दी जायेगी)।

हवलदार काजी बाबू थापा (सं० 5240417 ए० अब जे० सी०—196666 एच०)—23 जनवरी 1990\*।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना उपेक्षता 01 दिसम्बर 1989 से दी जायेगी)।

हवलदार कृष्ण बहादुर थापा (सं० 5240334 डब्ल्यू अब जे० सी०—196667 एल०)—25 दिसम्बर 1989।

हवलदार सिल बहादुर थापा (सं० 5240369 एम० अब जे० सी०—196668 एन०)—30 दिसम्बर 1989।



हवलदार मन्व खाल पुन (सं० 5240387 पी० अब जे० सी०-196669 डब्ल्यू०)--02 जनवरी 1990 ।

हवलदार नेत्र बहादुर गुहिंग (सं० 5240318 डब्ल्यू० अब जे० सी०-196670 एन०)--01 फरवरी 1990 ।

हवलदार प्राम बहादुर गुहिंग (सं० 5240906 एम० अब जे० सी०-19667 एन०)--01 फरवरी 1990 ।

हवलदार राम बहादुर गुहिंग (सं० 5239483 एम० अब जे० सी०-196672 डब्ल्यू०)--27 फरवरी 1990 ।

हवलदार प्रताप राना (सं० 5242626 एम० अब जे० सी०-196673 वार्ड०)--27 फरवरी 1990 ।

हवलदार मन बहादुर थापा (सं० 5240120 ए० अब जे० सी०-196674 एफ०)--27 फरवरी 1990 ।

हवलदार दिन बहादुर थापा (सं० 5240133 एम० अब जे० सी०-196675 के०)--27 फरवरी 1990 ।

हवलदार हरि गुमाव गुहिंग (सं० 5240146 पी० अब जे० सी०-196676 एम०)--27 फरवरी 1990 ।

हवलदार श्रीकान्त बहादुर अश्री (सं० 5240204 एन० अब जे० सी०-196677 पी०)--27 फरवरी 1990 ।

4 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चन्द्रा बहादुर गुहिंग (सं० 5341578 एल० अब जे० सी०-196663 पी०)--01 फरवरी 1990 ।

हवलदार चन्द्रा बहादुर राना (सं० 5342115 एल० अब जे० सी०-196664 एम०)--01 मार्च 1990 ।

हवलदार कुन्दी विहू गुहिंग (सं० 5340985 एफ० अब जे० सी०-196654 एन०)--01 दिसम्बर 1989 ।

हवलदार मन प्रताप गुहिंग (सं० 5340895 ए० अब जे० सी०-196655 डब्ल्यू०)--01 दिसम्बर 1989 ।

हवलदार प्रेम बहादुर रोक (सं० 5340613 डब्ल्यू० अब जे० सी०-196656 वार्ड०)--01 दिसम्बर 1989 ।

हवलदार अमिन कुमार थापा (सं० 5341703 के० अब जे० सी०-196657 एफ०)--01 दिसम्बर 1989 ।

हवलदार मोहन सिंह गुहिंग (सं० 5340573 ए० अब जे० सी०-196658 के०)--25 जनवरी 1990 ।

हवलदार नर बहादुर थापा (सं० 5340736 एच० अब जे० सी०-196659 एम०)--01 फरवरी 1990 ।

हवलदार प्रेम बहादुर थापा (सं० 5340485 के० अब जे० सी०-196660 एफ०)--01 फरवरी 1990 ।

हवलदार मान सिंह गुहिंग (सं० 5340906 एफ० अब जे० सी०-196661 के०)--01 फरवरी 1990 ।

हवलदार लाल बहादुर थापा (सं० 5341109 एच० अब जे० सी०-196662 एम०)--01 फरवरी 1990 ।

11 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमर बहादुर राई (9413489 के० अब जे० सी०-196649 एच०)--20 फरवरी 1990\*

\*वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 15 नवम्बर 1989 से दी जायेगी ।

2—304 GI/90

हवलदार राजन तंजा (9413417 ए० अब जे० सी०-196650 एम० 07 दिसम्बर 1989

हवलदार टेक नाथ राई (9413436 एल० अब जे० सी०-196651 ए०)--01 जनवरी 1990

हवलदार सांगबू बुकपा (9413146 एन० अब जे० सी०-196652 एच०)--14 फरवरी 1990@

@वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 जनवरी 1990 से दी जायेगी ।

हवलदार धन बहादुर राई (9413467 एल० अब जे० सी०-196653 एन०)--01 फरवरी 1990

हवलदार युक्ति बहादुर लिम्बु (9411489 एन० अब जे० सी०-196646 पी०)--101 दिसम्बर 1989 ।

हवलदार जम कुमार राई (9412400 ए० अब जे० सी०-196647 एम०)--15 दिसम्बर 1989 ।

हवलदार मुकरान सुब्बा (9412833 एम० अब जे० सी०-196648 एच०)--01 जनवरी 1990 ।

हवलदार राम बहादुर राई (9412658 एन० अब जे० सी०-196641 डब्ल्यू०)--13 अक्टूबर 1989 ।

हवलदार दिन बहादुर लिम्बु (9411224 एफ० अब जे० सी०-196642 वार्ड०)--16 दिसम्बर 1989\*

\*वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1989 से दी जायेगी ।

हवलदार गोगे बहादुर लिम्बु (9411675 एफ० अब जे० सी०-196643 एफ०)--01 नवम्बर 1989 ।

हवलदार रमेश कुमार थापा (9411702 ए० अब जे० सी०-196644 के०)--01 दिसम्बर 1989 ।

हवलदार नारायण प्रताप लिम्बु (9413587 ए० अब जे० सी०-196645 एम०)--01 जनवरी 1990 ।

1 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार फुल बहादुर गुहिंग (सं० 5039034 वार्ड० अब जे० सी०-196639 वार्ड०)--13 दिसम्बर 1989\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1989 से दी जायेगी ।

हवलदार रामेश विह थापा (सं० 5038979 डब्ल्यू० अब जे० सी०-196640 एन०)--19 जनवरी 1990\*\*

\*\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1989 से दी जायेगी ।

हवलदार श्रीम बहादुर गुहिंग (सं० 5037730 एच० अब जे० सी०-196623 एन०)--1 जनवरी 1990 ।

हवलदार वन बहादुर राना (सं० 5038673 एन० अब जे० सी०-196624 डब्ल्यू०)--1 जनवरी 1990 ।

हवलदार रज बहादुर थापा (सं० 5038631 डब्ल्यू० अब जे० सी०-196625 वार्ड०)--1 जनवरी 1990 ।

हवलदार गोविन्द बहादुर गुहिंग (सं० 5040555 वार्ड० अब जे० सी०-196626 एफ०)--1 जनवरी 1990 ।

हवलदार विक्रम सिंह थापा (सं० 5038382 एन० अब जे० सी०-196627 के०)--1 जनवरी 1990

हवलदार रत बहादुर राणा (सं०-5038503 के० अथ जे० सी०-196628 एम०)—1 जनवरी 1990।

हवलदार नर बहादुर माल (सं० 5038487 एक्स० अथ जे० सी०-196629 पी०)—1 जनवरी 1990।

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं० 5038220 एच० अथ जे० सी०-196630 के०)—1 जनवरी 1990।

हवलदार जूग बहादुर थापा (सं०-5038329 एच० अथ जे० सी०-196631 एम०)—16 जनवरी 1990\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1990 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह गुरूंग (सं० 5038522 पी० अथ जे० सी०-196632 पी०)—1 फरवरी 1990।

हवलदार हुक बहादुर गुरूंग (सं० 5038401 एन० अथ जे० सी०-196633 एक्स०)—1 फरवरी 1990।

हवलदार राम प्रसाद थापा (सं० 5038891 एम० अथ जे० सी०-196634 ए०)—6 फरवरी 1990।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क राम मिलन (सं० 5037865 वाई० अथ जे० सी०-196635 एच०)—7 फरवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1990 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जय प्रकाश वर्मा (सं० 5038120 एक्स० अथ जे० सी०-196636 एल०)—1 जनवरी 1990।

हवलदार क्लर्क रोशन लाल (सं० 5038119 एच० अथ जे० सी०-196637 एन०)—1 फरवरी 1990।

हवलदार क्लर्क चंद्रजी लाल शर्मा (सं० 5038122 एच० अथ जे० सी०-196638 इम्प्यू०)—1 फरवरी 1990।

जम्मु और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक नरेन्द्र सिंह पठानिया (13732010 के० अथ जे० सी०-196603 ए०)—01 जनवरी 1990

हवलदार लिपिक करतार चन्व (13732033 एल० अथ जे० सी०-196604 एच०)—01 जनवरी 1990

हवलदार लिपिक दिलबाग सिंह पाल (9920896 एक्स० अथ जे० सी०-196605 एल०)—01 जनवरी 1990

हवलदार लिपिक भोकार सिंह (13732618 वाई० अथ जे० सी०-196606 एल०)—01 फरवरी 1990

हवलदार लिपिक प्रेम नाथ शर्मा (9920898 एच० अथ जे० सी०-196607 इम्प्यू०)—01 फरवरी 1990

नायब सूबेदार (जी०डी०) के रैंक में

हवलदार स्वर्ण सिंह (13737063 एम० अथ जे० सी०-196608 वाई०)—05 मई 1989

हवलदार रोशन लाल (13732177 एन० अथ जे० सी०-196609 एफ०)—18 जून 1989\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 1989 से दी जायेगी)

हवलदार रघुनन्दन सिंह (13730759 पी० अथ जे० सी०-196610 इम्प्यू०)—25 नवम्बर 1989

हवलदार केहर सिंह (13730955 पी० अथ जे० सी०-196611 वाई०)—25 नवम्बर 1989

हवलदार विद्यानु प्रसाद जैसी (13737683 एच० अथ जे० सी०-196612 एफ०)—01 दिसम्बर 1989

हवलदार मस्त राम (13736739 एक्स० अथ जे० सी०-196613 के०)—30 दिसम्बर 1989

हवलदार प्यार सिंह (13739409 इम्प्यू० अथ जे० सी०-196614 एम०)—01 जनवरी 1990

हवलदार जोगेन्द्र नाथ (13729747 एन० अथ जे० सी०-196615 पी०)—01 जनवरी 1990

हवलदार मलकीत सिंह (13731205 एच० अथ जे० सी०-196616 एक्स०)—01 जनवरी 1990

हवलदार ग्यान चन्व (13732119 के० अथ जे० सी०-196617 ए०)—01 जनवरी 1990

हवलदार विनोद कुमार (13732402 एक्स० अथ जे० सी०-196618 एक्स०)—01 जनवरी 1990

हवलदार जोगेश्वर सिंह (13732743 एच० अथ जे० सी०-196619 एल०)—01 जनवरी 1990

हवलदार राय सिंह पटियाल (13733276 एच० अथ जे० सी०-196620 ए०)—01 जनवरी 1990

हवलदार पूरणा बहादुर पुन (13731725 एन० अथ जे० सी०-196621 एच०)—12 जनवरी 1990

हवलदार प्रकाश चन्व (13730588 एन० अथ जे० सी०-196622 एल०)—01 फरवरी 1990

महाराज रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

पी०ए० हवलदार राजेश्वर कुमार (सं० 4548677 के० अथ जे० सी०-196602 एक्स०)—03 फरवरी 1990

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार श्री राम यादव (सं० 4250279 एच० अथ जे० सी०-196596 पी०)—01 सितम्बर 1989

हवलदार हीरा चन्व भगत (सं० 4253549 एक्स० अथ जे० सी०-196597 एक्स०)—04 नवम्बर 1989\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में भत्ता और वेतन पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 1989 से दी जायेगी)

सी०एच०एम० हरीहर प्रसाद (सं० 4248555 एफ० अथ जे० सी०-196598 ए०)—01 जनवरी 1990

हवलदार लखिन्द्र नाथ जारिका (सं० 4252301 एफ० अथ जे० सी०-196599 एच०)—01 जनवरी 1990

हवलदार हेम्वरम कुमार गणेश्वर मांझी (सं० 4250608 एन० अथ जे० सी०-196600 एम०)—01 जनवरी 1990

सी०एच०एम० नगेन्द्र मिश्र (सं० 4249395 वाई० अथ जे० सी०-196601 पी०)—01 जनवरी 1990

आसाम रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विजित कुमार राय (4347506 एफ० अथ जे० सी०-196594 के०)—25 दिसम्बर 89

हवलदार जेन चन्द्र ब्रह्मा (4347863 के० अब ज०सी०-196595 ए०) --25 दिसम्बर 89

हवलदार दीलीप के० आर० मर्मा (4348621 ए० अब ज०सी०-196589 वाई०) --01 जनवरी 90

हवलदार लोहित चन्द्रा राणा (4346860 के० अब ज०सी०-196590 ए०) --01 जनवरी 90

हवलदार डब्लू० ए० घनगो अनल (4345914 ए० अब ज०सी०-196591 डब्लू०) --01 जनवरी 90

हवलदार के० अमजो माथो (4347132 डब्लू० अब ज०सी०-196592 वाई०) --10 जनवरी 90

हवलदार रोवालता सुवाधार (4348607 ए० अब ज०सी०-196593 ए०) 01 जनवरी 90

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 90 से दी जावेगी।

#### नागा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

मी०एच०एम० पान सिंह रावत (सं० 4190294 डब्लू० अब ज०सी०-196582 पी०) --01 जनवरी 1990

#### कुमाऊँ रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रमेश चन्द्रा (सं० 4159679 ए० अब ज०सी०-196567 ए०) --01 दिसम्बर 1989

हवलदार नारायण सिंह (सं० 4160046 ए० अब ज०सी०-196568 ए०) --01 दिसम्बर 1989

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं० 4160959 ए० अब ज०सी०-196569 ए०) --01 दिसम्बर 1990

हवलदार चतुर सिंह (सं० 4164735 वाई० अब ज०सी०-196570 ए०) --01 दिसम्बर 1989

हवलदार ललित किशोर (सं० 4160067 डब्लू० अब ज०सी०-196571 ए०) --06 दिसम्बर 1989

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1989 से दी जावेगी)

हवलदार नारायण सिंह (सं० 4158405 के० अब ज०सी०-196572 ए०) --01 जनवरी 1990

हवलदार रोहतास सिंह (सं० 4161632 पी० अब ज०सी०-196573 ए०) --01 जनवरी 1990

मी०एच०एम० जगदीश (सं० 4162685 ए० अब ज०सी०-196574 डब्लू०) --01 जनवरी 1990

हवलदार सरजीत सिंह (सं० 4161614 ए० अब ज०सी०-196575 वाई०) --01 जनवरी 1990

हवलदार सोम वत्त (सं० 4162782 ए० अब ज०सी०-196576 ए०) --01 जनवरी 1990

हवलदार सरजीत सिंह (सं० 4162833 ए० अब ज०सी०-196577 के०) --01 जनवरी 1990

हवलदार ब्या चन्द (सं० 4162671 ए० अब ज०सी०-196578 ए०) --01 जनवरी 1990

सी०एच०एम० किशत चन्द (सं० 4163391 वाई० अब ज०सी०-196579 पी०) --01 जनवरी 1990

हवलदार लक्ष्मी नारायण यादव (सं० 4163894 डब्लू० अब ज०सी०-196580 के०) --30 जनवरी 1990

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1990 से दी जावेगी)

हवलदार शिवो राज (सं० 4168728 ए० अब ज०सी०-196581 ए०) --19 जनवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 90 से दी जावेगी)

हवलदार राम कुमार सिंह राजपूत (सं० 4166180 ए० अब ज०सी० 196558 वाई०) --10 सितम्बर, 1989।

हवलदार सुरेश सिंह तनवर (सं० 4168382 ए० अब ज०सी०-196559 ए०) --10 सितम्बर, 1989।

हवलदार प्रताप राम (सं० 4165518 पी० अब ज०सी० डब्लू०-196560-28 अक्तूबर, 1989।

हवलदार जंग बहादुर चन्द (सं० 4165807 के० अब ज०सी०-196561 वाई०) --18 नवम्बर, 1989।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता नवम्बर, 1989 से दी जाएगी।)

सी० एच० ए० विक्रम सिंह (सं० 4165448 डब्लू० अब ज०सी०-196562 ए०) --10 जनवरी, 1990।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 दिसम्बर, 1989 से दी जाएगी।)

हवलदार मेव सिंह (सं० 4164846 डब्लू० अब ज०सी०-196563 के०) --1 जनवरी, 1990

हवलदार अशोक कुमार (सं० 4164442 ए० अब ज०सी०-196564 ए०) --3 जनवरी, 1990।

#### नायब सूबेदार कर्क के रैंक में

हवलदार कर्क विद्याधर दास (सं० 4161370 के० अब ज०सी०-196566 पी०) --1 जनवरी, 1990

हवलदार कर्क रघुबीर प्रसाद जंगीव (सं० 4161390 ए० अब ज०सी०-196566 ए०) --18 जनवरी, 1990।\*

\* (नायब सूबेदार कर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1990 से दी जाएगी।)

#### नागा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रताप सिंह (सं० 4165187 वाई० अब ज०सी०-196583 ए०) --21 जनवरी, 1990।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 दिसम्बर, 1989 से दी जाएगी।)

हवलदार भूपाल सिंह (नं० 4167846 एफ० अब जे० सी०-196584 ए०)—27 सितम्बर, 1989।

हवलदार मंगल सिंह (नं० 4163144 एफ० अब जे० सी०-196585 ए०)—27 सितम्बर, 1989।

सी० एच० एम० तौफोआ (नं० 14700538 के० अब जे० सी० 196586 ए०)—1 जनवरी, 1990।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क बिभान राम आर्या (नं० 4160853 पी० अब जे० सी० 196587 ए०)—1 जनवरी, 1990।

कुमाऊं रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धूरन सिंह (नं० 4168520 एफ० अब जे० सी०-196556 ए०)—10 दिसम्बर, 1989

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार राम सिंह (नं० 4167685 के० अब जे० सी० 196557 ए०)—2 जनवरी, 1990।

नागा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ग्राम एम० रावत (नं० 4050235 एफ० अब जे० सी० 196582 पी०)—8 दिसम्बर, 1989।

कुमाऊं रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रतन सिंह (नं० 4165870 वार्ड० अब जे० सी० 196547 ए०)—21 दिसम्बर, 1989।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार मोहन सिंह (नं० 4166717 पी० अब जे० सी० 196548 पी०)—3 दिसम्बर, 1989।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार मिथाराम यादव (नं० 4159622 एम० अब जे० सी०-196549 एम०)—20 जनवरी, 1990।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 नवम्बर, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार खीम सिंह (नं० 4166726 डब्ल्यू० अब जे० सी०-196550 ए०)—6 दिसम्बर, 1989।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार कमान सिंह (नं० 4162791 वार्ड० अब जे० सी० 196551 पी०)—1 जनवरी, 1990

हवलदार शंकर वत्त (नं० 4162375 पी० अब जे० सी०-196552 ए०)—1 जनवरी, 1990

हवलदार तेक बहादुर चन्द (नं० 4166357 के० अब जे० सी०-196563 ए०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार प्रेम सिंह (नं० 4166125 ए० अब जे० सी०-196554 ए०)—1 फरवरी, 1990।

हवलदार चनरी चन्द (नं० 4166226 वार्ड० अब जे० सी०-196555 ए०)—1 फरवरी, 1990।

कुमाऊं रेजिमेंट

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक महेशचन्द्रा जोशी (4161398 के० अब जे० सी० 196544 वार्ड०)—1 फरवरी, 1990।

हवलदार लिपिक लक्ष्मण सिंह रौतेला (4161493 डब्ल्यू० अब जे० सी० 196545 ए०)—1 फरवरी, 1990।

हवलदार लिपिक दीना कन्वु सिन्हा (4161543 डब्ल्यू० अब जे० सी० 196546 के०)—1 फरवरी, 1990।

कुमाऊं रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रताप सिंह (नं० 4164954 ए० अब जे० सी० 196537 ए०)—13 नवम्बर, 1989

हवलदार राजेन्द्र सिंह (नं० 4166866 ए० अब जे० सी०-196538 ए०)—28 नवम्बर, 1989।

हवलदार रामचन्द्र (नं० 4166924 डब्ल्यू० अब जे० सी० 196539 डब्ल्यू०)—28 नवम्बर, 1989

हवलदार नैन सिंह (नं० 4165860 पी० अब जे० सी० 196540 ए०)—1 जनवरी, 1990

हवलदार प्रेम बलराम (नं० 4166871 ए० अब जे० सी० 196541 ए०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (नं० 4161486 ए० अब जे० सी० 196542 ए०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार सोहन सिंह (नं० 4161976 ए० अब जे० सी० 196543 डब्ल्यू०)—1 जनवरी, 1990।

गढ़वाल राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गजे सिंह बिष्ट (सं० 4050926 ए० अब जे० सी० 196530 वार्ड०)—1 नवम्बर, 1989।

हवलदार मोहन सिंह नेगी (सं० 4050105 के० अब जे० सी० 196531 ए०)—5 दिसम्बर, 1989।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1989 से दी जाती है)।

हवलदार रुद्रा सिंह नेगी (सं० 4049104 के० अब जे० सी० 196532 के०)—4 दिसम्बर, 1989।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर, 1989 से दी जाती है)।

हवलदार गोविन्द सिंह (सं० 4052773 ए० अब जे० सी० 196533 ए०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार देव सिंह भण्डारी (सं० 4052716 ए० अब जे० सी०-196534 पी०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार दिनकर सिंह रावत (सं० 4051042 ए० अब जे० सी० 196535 ए०)—9 जनवरी, 1990।

## नायब सूबेदार (कलकत्ता) के रैंक में

हवलदार (विशेष) मोतीलाल शर्मा (सं० 1050165 एन० अग्र जे० सी० 196516 एन०)—1 जनवरी, 1990।

## गढ़नाग राक्षस

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मुन्नाभे मिश्रा (सं० 2766240 डब्ल्यू० अग्र जे० सी०—196525 एन०)—1 दिसम्बर, 1989।

हवलदार गीतान चन्द राशत (सं० 1051430 एफ० अग्र जे० सी०—196526 डब्ल्यू०)—1 दिसम्बर, 1989।

हवलदार हरभान सिंह (सं० 4055318 एन० अग्र जे० सी० 196527 वार्ड०)—1 दिसम्बर, 1989।

हवलदार कुवान सिंह नेगी (सं० 4048835 एन० अग्र जे० सी० 196528 एफ०)—16 फरवरी, 1990\*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1990 से दी जाएगी)।

हवलदार राजेश सिंह (सं० 4052647 एफ० अग्र जे० सी० 196529 के०)—1 फरवरी, 1990।

## हैमरा रेजिमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धामीर सिंह (सं० 3966714 एन० अग्र जे० सी० 196520 पी०)—20 जनवरी, 1989।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार रमेश चन्द (सं० 3966134 एन० अग्र जे० सी० 196521 एन०)—18 अगस्त, 1989।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार कमलेश सिंह शर्मा (सं० 3966514 डब्ल्यू० अग्र जे० सी० 196522 ए०)—1 अगस्त, 1989।

हवलदार सोनाराम (सं० 3967426 एन० अग्र जे० सी० 196523 ए०)—1 नवम्बर, 1989।

हवलदार गेरी सिंह (सं० 3968137 एन० अग्र जे० सी० 196524 एन०)—7 जनवरी, 1990।

## सिख लाइट इन्फैन्ट्री

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जीत सिंह (सं० 4154398 ए० अग्र जे० सी० 196504 ए०)—21 मार्च, 1989।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार विनोद सिंह (सं० 4155727 वार्ड० अग्र जे० सी० 196505 ए०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार गणेश सिंह (सं० 4154767 ए० अग्र जे० सी० 196506 ए०)—25 दिसम्बर, 1989।

हवलदार विमल सिंह (सं० 4155521 ए० अग्र जे० सी० 196507 ए०)—24 अगस्त, 1989।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार मयकीर सिंह (सं० 4156453 के० अग्र जे० सी० 196508 ए०)—1 अक्टूबर, 1989।

हवलदार गुणेश सिंह (सं० 4155602 ए० अग्र जे० सी० 196509 डब्ल्यू०)—1 अक्टूबर, 1989।

हवलदार ज्ञान सिंह (सं० 4151823 पी० अग्र जे० सी० 196510 ए०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार अतार सिंह (सं० 4455313 ए० अग्र जे० सी० 196511 ए०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार नाथ सिंह (सं० 4455197 ए० अग्र जे० सी० 196512 डब्ल्यू०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार समिन्त सिंह (सं० 4452778 ए० अग्र जे० सी० 196513 वार्ड०)—8 जनवरी, 1990।

हवलदार गुज्जर सिंह (सं० 4449509 ए० अग्र जे० सी० 196514 ए०)—8 जनवरी, 1990।

हवलदार बजरंग सिंह (सं० 4449523 पी० अग्र जे० सी० 196515 के०)—8 जनवरी, 1990।

## नायब सूबेदार (कलकत्ता) के रैंक में

हवलदार कलकत्ता फकीर चन्द (सं० 4448459 डब्ल्यू० अग्र जे० सी० 196516 ए०)—21 जुलाई, 1989।

हवलदार बलक मधर सिंह (सं० 4449625 ए० अग्र जे० सी० 196517 पी०)—23 दिसम्बर, 1989।

## सिख लाइट इन्फैन्ट्री

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार काजल सिंह (सं० 4452668 ए० अग्र जे० सी० 196492 ए०)—1 मार्च, 1989।

हवलदार राम पाल सिंह (सं० 4456725 वार्ड० अग्र जे० सी० 196493 डब्ल्यू०)—5 अगस्त, 1989।

हवलदार गरीब सिंह (सं० 4456440 ए० अग्र जे० सी० 196494 वार्ड०)—5 अगस्त, 1989।

हवलदार कश्मीर सिंह (सं० 4450975 के० अग्र जे० सी० 196495 ए०)—1 दिसम्बर, 1989।

हवलदार बखशीश सिंह (सं० 4448936 ए० अग्र जे० सी० 196496 के०)—25 दिसम्बर, 1989।

## नायब सूबेदार (कलकत्ता) के रैंक में

हवलदार (कलकत्ता) सफ़ियत सिंह (सं० 4448472 ए० अग्र जे० सी० 196497 ए०)—8 नवम्बर, 1989।

\* (नायब सूबेदार (कलकत्ता) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार (कलकत्ता) गुरुबजन सिंह गिण (सं० 4448259 ए० अग्र जे० सी० 196498 पी०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार (कलकत्ता) सेमूअल वी० मथीरू (सं० 4448755 ए० अग्र जे० सी० 196499 ए०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार (कलकत्ता) करम सिंह (सं० 4449810 वार्ड० अग्र जे० सी० 196500 ए०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार (कलकत्ता) निरंजन दाम महल (सं० 8018301 के० अग्र जे० सी० 196501 के०)—1 जनवरी, 1990।

हवलदार (कलकत्ता) सोधर दास (सं० 8018877 ए० अग्र जे० सी० 196502 ए०)—1 फरवरी, 1990।

हवलदार (क्लर्क) गुरमन सिंह (सं० 4449932 एन० अब जे० सी० 196503 पी०) — 1 फरवरी, 1990।

सिख लाईट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तेजपाल सिंह (सं० 4453178 के० अब जे० सी० 196490 ए०) — 1 जनवरी, 1990।

हवलदार केसर सिंह (सं० 4449745 के० अब जे० सी० 196491 ए०) — 1 जनवरी, 1990।

सिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० ए० एम० हरमजन सिंह (सं० 3363334 ए० अब जे० सी० 196488 ए०) — 22 दिसम्बर, 1989।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) लखवीर सिंह (सं० 3367531 ए० अब जे० सी० 196489 ए०) — 01 मार्च, 1990।

सिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) गुरनाम सिंह (सं० 3367570 के० अब जे० सी० 196487 ए०) — 1 मार्च, 1990।

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राज सिंह (सं० 3165185 पी० अब जे० सी० 196483 ए०) — 11 जनवरी, 1990।

हवलदार धर्म चन्द (सं० 3165957 के० अब जे० सी० 196484 पी०) — 11 जनवरी, 1990।

हवलदार बचन सिंह (सं० 3968308 ए० अब जे० सी० 196485 ए०) — 1 फरवरी, 1990।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार कर्क लाल सिंह यादव (सं० 3160741 वार्ड० अब जे० सी० 196486 ए०) — 14 जनवरी, 1990।

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार केसर मज (सं० 3158227 इन्फ० अब जे० सी० 196479 के०) — 23 नवम्बर, 1989।

हवलदार हरकपाल (सं० 3162608 के० अब जे० सी० 196480 वार्ड०) — 19 फरवरी, 1990।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार गोपी चन्द (सं० 3159050 ए० अब जे० सी० 196481 ए०) — 1 फरवरी, 1990।

हवलदार हरी राम वर्मा (सं० 3159013 ए० अब जे० सी० 196482 के०) — 1 मार्च, 1990।

राजपूत रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गोविन्द सिंह (सं० 2968265 ए० अब जे० सी० 196474 ए०) — 18 दिसम्बर, 1989।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार राम विशाल उपाध्याय (सं० 2967703 इन्फ० अब जे० सी० 196475 ए०) — 1 दिसम्बर, 1989।

हवलदार कुन्दन सिंह (सं० 2969617 के० अब जे० सी० 196478 इन्फ०) — 1 दिसम्बर, 1989।

नायब सूबेदार कर्क के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) सम्भू नाथ शरफदार (सं० 2966161 ए० अब जे० सी० 196477 वार्ड०) — 1 फरवरी, 1990।

हवलदार (क्लर्क) रतवीर सिंह (सं० 2966269 ए० अब जे० सी० 196478 ए०) — 1 फरवरी, 1990।

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जमेव सिंह (सं० 4053647 ए० अब जे० सी० 196463 वार्ड०) — 21 नवम्बर, 1989

हवलदार हुकम सिंह चौहान (सं० 2867705 ए० अब जे० सी० 196464 ए०) — 22 नवम्बर, 1989

हवलदार धरमवीर सिंह (सं० 2867541 ए० अब जे० सी० 196465 के०) — 7 दिसम्बर, 1989

हवलदार महिन्दर सिंह (सं० 2864458 वार्ड० अब जे० सी० 196466 ए०) — 23 दिसम्बर, 1989

हवलदार राजवीर सिंह (सं० 2866511 ए० अब जे० सी० 196467 पी०) — 29 दिसम्बर, 1989

हवलदार विरेन्द्र सिंह रावत (सं० 4054512 वार्ड० अब जे० सी० 196468 ए०) — 1 जनवरी, 1990

हवलदार तारा चन्द (सं० 2866423 ए० अब जे० सी० 196469 ए०) — 24 जनवरी, 1990

हवलदार अनार सिंह (सं० 2867745 ए० अब जे० सी० 196470 पी०) — 1 फरवरी, 1990

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) शमशेर सिंह (सं० 2862925 ए० अब जे० सी० 196471 ए०) — 1 जनवरी, 1990

हवलदार (क्लर्क) सेवा सिंह (सं० 2862875 ए० अब जे० सी० 196472 ए०) — 1 जनवरी, 1990

हवलदार (क्लर्क) राजपाल सिंह (सं० 2862937 ए० अब जे० सी० 196473 ए०) — 1 जनवरी, 1990

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुन्दर सिंह (सं० 2863726 ए० अब जे० सी० 196449 ए०) — 1 दिसम्बर, 1989

हवलदार वेद प्रकाश गोशाला (सं० 2864395 ए० अब जे० सी० 196450 ए०) — 1 दिसम्बर, 1989

हवलदार रतवीर सिंह (सं० 2864447 ए० अब जे० सी० 196451 के०) — 18 दिसम्बर, 1989

हवलदार राम करन भाकर (सं० 2864532 पी० अब जे० सी० 196452 ए०) — 1 फरवरी, 1990

## नायब सूबेदार कर्क के रैंक में

हवलदार कर्क राम निवास चौधरी (सं०-2862609 एम० अब जे०सी०-196453 पी०)—1 जनवरी 1990

हवलदार कर्क दशरथ सिंह (सं०-2862794 एम० अब जे०सी०-196454 एफ०)—1 जनवरी 1990

हवलदार कर्क गजेन्द्र सिंह (सं०-2862850 ए० अब जे०सी०-196455 ए०)—1 जनवरी 1990

हवलदार कर्क अलैकजेन्डर ई० डाइसल (सं०-2862836 एम० अब जे०सी०-196456 ए०)—1 जनवरी 1990

हवलदार कर्क दिलबाग सिंह भोला (सं०-2862688 एम० अब जे०सी०-196457 ए०)—1 जनवरी 1990

हवलदार कर्क जगमाल सिंह (सं०-2862856 एफ० अब जे०सी०-196458 ए०)—1 जनवरी 1990

हवलदार कर्क रामेश्वर बयान (सं०-2862855 आई० अब जे०सी०-196459 डब्ल्यू०)—1 जनवरी 1990

हवलदार कर्क राम रतन वर्मा (सं०-2862708 डब्ल्यू० अब जे०सी०-196460 ए०)—1 जनवरी 1990

हवलदार कर्क श्री भगवान (सं०-2862861 एम० अब जे०सी०-196461 ए०)—1 जनवरी 1990

हवलदार कर्क दया नन्द (सं०-2862728 के० अब जे०सी०-196462 डब्ल्यू०)—1 जनवरी 1990

## मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

## नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक जनार्दन नायर पी०पी० (सं०-2762897 डब्ल्यू० अब जे०सी०-196435 एम०)—01 दिसंबर 1989

हवलदार लिपिक प्रकाश नागोजी संभोनकर (सं०-2762868 एफ० अब जे०सी०-196436 पी०)—01 फरवरी 1990

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोहन लखड (सं०-2762715 एफ० अब जे०सी०-196437 एफ०)—21 जनवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अगस्त 1989 दी जाती है )

हवलदार वसंत खरसाहे (सं०-2760873 एम० अब जे०सी०-196438 ए०)—01 सितंबर 1989

हवलदार चोगुले हिंदुराव यशवंत (सं०-2762532 एफ० अब जे०सी०-196439 ए०)—23 नवंबर 1989\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवंबर 1989 से दी जाती है )

हवलदार बालू परधराम निष्कम (सं०-2767692 एम० अब जे०सी०-196440 एफ०)—07 नवंबर 1989

हवलदार पाटील माण्टी विठू (सं०-2767704 पी० अब जे०सी०-196441 ए०)—07 नवंबर 1989

हवलदार कदम सूर्यकांत तुकाराम (सं०-2769946 डब्ल्यू० अब जे०सी०-196442 ए०)—23 नवंबर 1989\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 नवंबर 1989 से दी जाती है )

हवलदार मुलीक सुरेश तुकाराम (सं०-2766936 एफ० अब जे०सी०-196443 ए०)—22 दिसंबर 1989\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसंबर 1989 से दी जाती है )

हवलदार शिर्के यशवंत रामचंद्र (सं०-2767440 आई० अब जे०सी०-196444 ए०)—27 दिसंबर 1989

हवलदार बाबामाहेत्र शंकर भंबारे (सं०-2767998 एम० अब जे०सी०-196445 डब्ल्यू०)—07 फरवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1990 से दी जाती है )

हवलदार आत्माराम जनाबा पाटील (सं०-2767622 एम० अब जे०सी०-196446 आई०)—07 फरवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1990 से दी जाती है )

हवलदार संयत कार्ले (सं०-2766808 के० अब जे०सी०-196447 एफ०)—01 फरवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1990 से दी जाती है )

हवलदार माहिने शंकर गिवाराम (सं०-2770378 एफ० अब जे०सी०-196448 ए०)—05 जनवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1990 से दी जाती है )

## मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

## नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक नाले वसंत (सं०-2763592 ए० अब जे०सी०-196419 पी०)—01 मार्च 1990

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कदम भागवत शिवोबा (सं०-2763986 एफ० अब जे०सी०-196420 पी०)—01 मार्च 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1989 से दी जाती है )

हवलदार फकी गण (सं०-2760633 डब्ल्यू० अब जे०सी०-196421 एम०)—01 अगस्त 1989\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1989 से दी जाती है )

हवलदार पारसराव तुकाराम दवरो (सं०-2767529 एम० अब जे०सी०-196422 पी०)—01 अगस्त 1989

हवलदार सावंत वीनाबा (सं०-2764122 के० अब जे०सी०-196423 एफ०)—18 दिसंबर 1989\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अगस्त 1989 से दी जाती है )

हवलदार नरहरी हरीचंद्र महादेव (सं०-2767189 एम० अब जे०सी०-196424 ए०)—01 सितंबर 1989

हवलदार सावंत सुभाष कुडाजी (सं०-2769149 ए० अब जे०सी०-196425 ए०)—13 सितंबर 1989\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितंबर 1989 से दी जाती है )

हवलदार हवलद विभवनाथ कोण्डीबा (सं०-2770674 एम० अब जे०सी०-196426 ए०)—01 जनवरी 1990

हवलदार अजीत कुमार (सं०-2770249 ए० अब जे०सी०-196427 ए०)—01 जनवरी 1990

हवलदार गावडे सुभाष (सं०-2764141 पी० अब जे०सी०-19642 डब्ल्यू०)—31 जनवरी 1990

हवनदार चन्द्राण विना वयथा (सं-2765971 वाई) अब जे० सी०-196429 वाई) --31 जनवरी 1990

हवनदार कावाडे मदनकुमार लवण (सं-2766005 एफ० अब जे० सी०-196430 ए०) --31 जनवरी 1990

हवनदार कामोने विजय गोपाल (सं-2766657 डब्ल्यू अब जे० सी०-196431 ए०) --31 जनवरी 1990

हवनदार नाथ विनयाश्रम सिंदे (सं-2765012 वाई० अब जे० सी०-196432 वाई) --31 जनवरी 1990

हवनदार सुधाव गुणराम पेठू (सं-2767893 के० अब जे० सी०-196433 ए०) --31 जनवरी 1990

हवनदार दांडू वेणू (सं-2763239 डब्ल्यू अब जे० सी०-196434 के०) --31 जनवरी 1990

प्रिनेसिपल

नायब सूबेदार के रैंक में

हवनदार प्यार बरद (सं० 2658460 डब्ल्यू अब जे० सी०-196397 ए०), 01 मार्च 1990 ।

हवनदार मजीद अली (सं०-2658559 ए० अब जे० सी०-196398 के०), 07 मार्च 1990 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा सत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1990 )

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवनदार (लिपिक) हरी सिंह (सं०-2659581 के० अब जे० सी०-196399 ए०), 01 नवम्बर 1989 ।

हवनदार (लिपिक) मोहम्मद सुना (सं०-2659801 ए० अब जे० सी०-196400 डब्ल्यू०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार (लिपिक) मदन चान (सं०-2659688 वाई० अब जे० सी०-196401 वाई०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार (लिपिक) इन्द्रजीत सिंह वैष (सं०-2659926 ए० अब जे० सी०-196402 ए०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार (लिपिक) देव राज (सं०-2659780 ए० अब जे० सी०-196403 के०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार (लिपिक) वाच कियन (सं०-2659882 ए० अब जे० सी०-196404 ए०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार (लिपिक) जय सिंह बहार (सं०-2659941 पी० अब जे० सी०-196405 पी०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार (लिपिक) देव राज सिंह (सं० 2659191 ए० अब जे० सी०-196406 ए०), 14 फरवरी 1990 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा सत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1989 ।

प्रिनेसिपल

नायब सूबेदार के रैंक में

हवनदार डाक्टर सुवीण कुमार (सं०-2668112 के० अब जे० सी०-196407 ए०), 28 जुलाई 1989 ।

हवनदार फून बरद मोगा (सं०-2666954 पी० अब जे० सी०-196408 ए०), 01 जनवरी 1989 ।

हवनदार बोडे सोमाभाई सोनी वाई (सं० 2664058 ए० अब जे० सी०-196409 ए०), 06 अक्टूबर 1989 ।

हवनदार सुभाषिणी (सं०-2662992 ए० अब जे० सी०-196410 ए०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार महादेव सिंह (सं०-2653035 ए० अब जे० सी०-196411 ए०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार अशोक चौ (सं०-2666914 ए० अब जे० सी०-196412 ए०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार राम कुमार (सं०-2653399 ए० अब जे० सी०-196413 ए०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार अशोक (सं०-2651717 ए० अब जे० सी०-196414 डब्ल्यू०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार सुरेश चव (सं०-2651134 ए० अब जे० सी०-196415 वाई०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार देवदास सिंह (सं० 2657116 वाई० अब जे० सी०-196416 ए०), 01 जनवरी 1990 ।

हवनदार लखन सिंह (सं०-2651134 ए० अब जे० सी०-196417 के०) 31 जनवरी 1990 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा सत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1990 )

हवनदार हीरक सिंह (सं०-2659666 ए० अब जे० सी०-196418 ए०), 01 जनवरी 1990 ।

मद्रास रजिस्ट्रार

नायब सूबेदार के रैंक में

हवनदार शुभशा रामवेण (सं०-2676161 ए० अब जे० सी०-196391 ए०), 13 मार्च 1990 ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा सत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 89 तक लागू रहेगी)

हवनदार राजेश कुमार सिंह (सं०-26573145 ए० अब जे० सी०-196395 डब्ल्यू०), 1 दिसम्बर 1989 ।

हवनदार मधुसूदन जाधे (सं० 2670724 ए० अब जे० सी०-196396 वाई०), 1 जनवरी 1990 ।

पंजाब रजिस्ट्रार

नायब सूबेदार के रैंक में

हवनदार चैत सिंह (सं०-2462991 ए० अब जे० सी०-196375 ए०), 01 नवम्बर 1989 ।

हवनदार बरत सिंह (सं० 2160176 पी० अब जे० सी०-196376 ए०), 07 नवम्बर 1989 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा सत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1989 तक लागू रहेगी)

हवनदार अशोक सिंह (सं०-2461733 ए० अब जे० सी०-196377 ए०), 01 जनवरी 1990

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा सत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 नवम्बर 1989 तक लागू रहेगी)

हवनदार प्रभु सिंह (सं०-2466551 ए० अब जे० सी०-196378 डब्ल्यू०), 01 दिसम्बर 1989 ।

हवनदार रमेश कुमार (सं०-2466505 डब्ल्यू० अब जे० सी०-196379 वाई०), 01 दिसम्बर 1989 ।

हवनदार सुवर्ण सिंह (सं०-2461896 ए० अब जे० सी०-196380 ए०), 01 जनवरी 1990 ।



हवलदार बलकार सिंह (नं०-2464375 ए० अब जे० सी०-196381 डब्ल्यू०), 01 जनवरी 1990।

हवलदार प्यार चन्द (नं०-2462788 ए० अब जे० सी०-196382 वार्ड०), 01 जनवरी 1990।

हवलदार कृष्ण ज्ञान (नं०-2458400 ए० अब जे० सी०-196383 ए० अब जे० सी०), 22 जनवरी 1990।

हवलदार अश्वार सिंह (नं०-2461726 वार्ड० अब जे० सी०-196384 के०), 22 जनवरी 1990।

हवलदार रत्नजीत सिंह (नं०-2460776 ए० अब जे० सी०-196385 ए० अब जे० सी०), 24 जनवरी 1990।

हवलदार भाग सिंह (नं०-2461590 ए० अब जे० सी०-196386 पी०), 01 फरवरी 1990।

हवलदार रसूल सिंह (नं०-2463238 पी० अब जे० सी०-196387 ए० अब जे० सी०), 01 फरवरी 1990।

हवलदार मुदर्शन सिंह (नं० 2464436 ए० अब जे० सी०-196388 ए० अब जे० सी०), 01 फरवरी 1990।

हवलदार शक्ति चन्द (नं०-2464516 के० अब जे० सी०-196389 ए० अब जे० सी०), 01 फरवरी 1990।

हवलदार रमेश चन्द राणा (नं०-2464642 डब्ल्यू० अब जे० सी०-196390 ए० अब जे० सी०), 01 फरवरी 1990।

हवलदार सन्तोष राज (नं०-2464843 पी० अब जे० सी०-196391 ए० अब जे० सी०), 26 फरवरी 1990।

#### नायब सूबेदार (लिपिक) के रूप में

हवलदार ज्ञान चन्द (नं०-2459294 डब्ल्यू० अब जे० सी०-196392 ए० अब जे० सी०), 01 जनवरी 1990।

हवलदार तगिन्दर सिंह (नं०-2459324 ए० अब जे० सी०-196393 ए० अब जे० सी०) 01 जनवरी 1990।

#### पैराफूट रेजिमेन्ट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नारायणन पी० (नं०-13608176 ए० अब जे० सी०-196366 ए० अब जे० सी०), 18 फरवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1989 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (नं०-13608805 के० अब जे० सी०-196367 के०), 19 दिसम्बर 1989\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 सितम्बर 1989 से दी जायेगी)।

हवलदार मसीवरत थाना परमबिल (नं०-13607724 ए० अब जे० सी०-196368 ए० अब जे० सी०), 18 दिसम्बर 1989\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1989 से दी जायेगी)।

हवलदार रोशन लाल (नं०-3968817 के० अब जे० सी०-196369 पी०), 02 फरवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर 1989 से दी जायेगी)।

हवलदार विधिमन्द (नं० 1360650 ए० अब जे० सी०-196370 के०), 09 दिसम्बर 1989।

3-304GI/90

डी० ए० ए० किरण सिंह (नं० 3964618 वार्ड० अब जे० सी०-196371 ए० अब जे० सी०), 08 जनवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार मन्मथ सिंह (नं०-13609953 ए० अब जे० सी०-196372 पी०), 20 फरवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1990 से दी जायेगी)।

#### नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार (लिपिक) मृगुन कल्पन (नं०-13606406 ए० अब जे० सी० 196373 ए० अब जे० सी०), 01 जनवरी 1990

हवलदार (लिपिक) हरी सिंह राटौर (नं०-13606448 ए० अब जे० सी०-196374 ए० अब जे० सी०), 01 जनवरी 1990।

#### गारद ब्रिगेड

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र नारायण सिंह (नं०-13667422 पी० अब जे० सी०-196348 वार्ड०), 01 अप्रैल 1989।

हवलदार बलवन्त सिंह (नं०-13664410 पी० अब जे० सी०-196349 ए० अब जे० सी०), 01 सितम्बर 1989।

हवलदार चरन सिंह (नं० 13667912 ए० अब जे० सी०-196350 डब्ल्यू०), 01 सितम्बर 1989।

हवलदार मान सिंह (नं०-13665578 ए० अब जे० सी०-196361 वार्ड०), 01 अक्टूबर 1989

हवलदार दिलपत राम (नं०-13665682 ए० अब जे० सी०-196352 ए० अब जे० सी०), 01 अक्टूबर 1989

हवलदार बलवान सिंह (नं०-13672372 वार्ड० अब जे० सी०-196353 के०), 23 जनवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अक्टूबर 1989 से दी जायेगी)।

हवलदार रूप लाल शर्मा (नं०-13734304 डब्ल्यू० अब जे० सी०-196354 ए० अब जे० सी०), 27 अक्टूबर 1989।

हवलदार जयदेव सिंह (नं०-13850147 ए० अब जे० सी०-196355 पी०), 27 अक्टूबर 1989।

हवलदार भूपाल सिंह बिष्ट (नं०-14221186 ए० अब जे० सी०-196356 ए० अब जे० सी०), 27 अक्टूबर 1989।

हवलदार फूल सिंह कटेवा (नं० 13670266 ए० अब जे० सी०-196357 ए० अब जे० सी०), 10 नवम्बर 1989

हवलदार ओम प्रकाश (नं० 13667519 ए० अब जे० सी०-196358 ए० अब जे० सी०), 16 नवम्बर 1989।

हवलदार विशोम्बर सिंह (नं० 13667521 ए० अब जे० सी०-196359 ए० अब जे० सी०), 16 नवम्बर 1989।

हवलदार चन्द्र पाल सिंह (नं० 13671555 ए० अब जे० सी०-196360 ए० अब जे० सी०), 16 नवम्बर 1989।

हवलदार शम्भू सिंह (नं०-13668762 के० अब जे० सी०-196361 ए० अब जे० सी०), 16 नवम्बर 1989।

हवलदार सन्त लाल (नं०-13665880 ए० अब जे० सी०-196362 ए० अब जे० सी०), 29 नवम्बर 1989।

हवलदार घया सिंह गुजर (सं०-13670930 डब्ल्यू० अब जे० सी०-198363 एन०), 01 दिसम्बर 1989।

हवलदार अमर सिंह (सं०-13665388 एफ० अब जे० सी०-198364 डब्ल्यू०), 07 जनवरी 1990।

हवलदार राजेश्वर सिंह (सं०-13668487 पी० अब जे० सी०-198365 वाई०), 08 फरवरी 1990।

#### डोनरा रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हुनर सिंह (सं०-3965515 एम० अब जे० सी०-196518 एमस०), 9 फरवरी 1990\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना अप्पेस्ट 1 अक्टूबर 1989 से ही जायेगी)।

नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में

हवलदार कर्क कमान सिंह पटानिया (सं०-3966185 एल० अब जे० सी०-198519 ए०), 1 मिनम्बर 1989।

टी० बी० कृष्णामूर्ति  
अवर सचिव

#### राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं० दिनांक --राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को भारत सरकार के पत्र सं० 5431/प्रमोशन/डीजी एन० सी० सी०/एमएस (बी)/818/ए/डी/(जी एम-6), दिनांक 7 अप्रैल 1981, के अनुसार कमाण्डर के सैलेशन रैंक में पदोन्नति करते हैं। उनका वेतनमान भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 5431/प्रमोशन/डी जी एन सीसी/एम एस (बी)/1257/ए/डी (जी एम-6), दिनांक 3 जून 1981 के अनुसार नियमित किया जाएगा। स्थायी कडर में उनकी पदोन्नति तथा वेतन के लिए वरिष्ठता रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 5110/81/डीजी एन सी सी/पर्स(ए)/11.7 (डी) (जी एम-6) दिनांक 13 मई 1981 के अनुसार होगी :—

पूर्ण कालिक एन० सी० सी० स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर

(नौ सेना स्कन्ध)

(लै० कमाण्डर से कमाण्डर के रूप में)

ओ० के० रामबास (एन सी सी एन/पी सी-11966), 04 अप्रैल 90।

सं० 1391 दिनांक 31/8/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की भारत सरकार के पत्र सं० 5431/प्रमोशन/डी जी एन सी सी/एम एस (बी) 818/ए/डी (जी एम-6), दिनांक 07 अप्रैल 1981 के अनुसार सैफिट० कर्नल के सैलेशन रैंक में पदोन्नति करते हैं। उनका वेतनमान भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 5431/प्रमोशन/डी जी ए/पी सी/एम एस(बी)/1257/ए/डी (जी एम-6) दिनांक 03 जून 1981 के अनुसार नियमित किया जाएगा। स्थायी कडर में उनकी पदोन्नति तथा वेतन के लिए वरिष्ठता रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 5110/81/डी जी एन सी सी/पर्स (ए)/1117/डी/(जी एम-6) दिनांक 13 मई 81 के अनुसार होगी।

पूर्णकालिक एन० सी० सी० स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर

(थल सेना स्कन्ध)

(जवन द्वारा मेजर से सैफिट० कर्नल के रूप में)

एम० एम० नन्दर (एन सी सी/पी सी-11883), 09 मार्च 1990।

बी० एस० वीक्षित (एन सी सी पी सी-11903), 01 मई 1990।

टी० बी० महापात्र

उप महानिदेशक (कार्तिक व वित्त)

(थल सेना विभाग)

सं० 1392, दिनांक 18-11-90—निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नोकरी पर बहाल किया जाता है। रैंक और बहाली की तिथि नाम के सामने धरित है :—

(नियमित सेना)

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार जसवंत सिंह (जे० सी०-85192 एक्स०) पहले जैक राइफल, 11 जून 1989।

सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-92376 वाई०) पहले आर्टिलरी 15 जून 1989।

सूबेदार राम जी लाल (जे० सी०-63966 पी०), पहले पैरा रेजीमेन्ट, 02 अगस्त 1989।

सूबेदार मुमय चन्दर चनरथ (जे० सी०-109573 ए०) पहले आर्टिलरी, 14 अगस्त 1989।

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राज कुमार राजपूत (जे० सी०-114174 ए०) पहले ग्रेनेडियर्स, 19 अगस्त 1989।

नायब सूबेदार युगा दास (जे० सी०-155814 एल०) पहले जैक राइफल, 19 अगस्त 1989।

नायब सूबेदार छज्जू सिंह जसरोटिया (जे० सी०-92550 ए०) पहले ए० एम० सी०, 12 जून 1989।

नायब सूबेदार घूराम सिंह (जे० सी०-112207 एफ०) पहले आर्टिलरी, 15 जून 1989।

नायब सूबेदार भोम प्रकाश (जे० सी०-152819 एफ०) पहले ग्रेनेडियर्स, 01 जून 1989।

सूबेदार कर्लक के रैंक में

सूबेदार कर्क अबतार सिंह (जे० सी०-102531 एल०) पहले सिगनल, 05 नवम्बर 1989।

टी० बी० नायर  
डेस्क अधिकारी

सं० 1393, दिनांक 14-9-90—निम्नलिखित जनरल अधिकारी ने राष्ट्रपति के अद्वैतिक सर्वेज के पद को अपने नाम के सामने ही गई तिथि से सेवा निवृत्त होने के कारण त्याग दिया है :—

लेफ्टीनेन्ट जनरल सूरज प्रकाश (एम० आर०-660) भूतपूर्व डी० डी० एम० एस० (आर्मी), 31 जुलाई 1990 (अपराह्न)।

सं० 1394, दिनांक 28-9-90—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को अग्ररुता के आधार पर सेवा नियुक्त की अनुमति देते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान अनित दुआ (एम० आर०-05154 डब्ल्यू०) सैनिक शाब्दरी कोर, 01 जुलाई 1990 (पूर्वाह्न)।

एस० चक्रवर्ती  
मेजर जनरल

डिप्टी डी० डी० ए० एफ० एम० एस०

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 3rd November 1990

No. 1378, dated 19th September, 1990.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Dubey, IOFS, Under Secretary, Ministry of Defence as Deputy Secretary in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 12th September, 1990 upto 31-5-1992 or until further orders, whichever is earlier.

No. 1379, dated 18th September, 1990.—The President is pleased to appoint Shri Yogesh Chandra, IOFS, Under Secretary (A.F.A.), Ministry of Defence, as Deputy Financial Adviser in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 27th August, 1990.

No. 1380, dated 19th September, 1990.—The Services of Group Captain M. K. Arora, Planning Officer (Systems), Ministry of Defence are placed at the disposal of Air Headquarters, with effect from the afternoon of the 14th September, 1990, for further posting.

No. 1381, dated 1st October, 1990.—Consequent on his selection for appointment as Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Director level) in the Central Administrative Tribunal, New Delhi, the services of Shri N. K. Saha, CSS, Deputy Secretary, Ministry of Defence are placed at the disposal of Central Administrative Tribunal, New Delhi, with effect from the afternoon of 1st October, 1990.

No. 1382, dated 1st October, 1990.—The President is pleased to permit Shri N. H. Venkataraman, CSSS, Private Secretary to Secretary, Ministry of Defence, to retire from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th September 1990.

G. B. WADAWADIGI, Under Secy.

ARMY SECTION  
ARMY HEADQUARTERS

(HQrs DGBR)

No. 1383, dated 10th September, 1990.—Smt Shanti Kundra, Stenographer (Grade 'C') is appointed as Stenographer Grade 'B' (HQrs DGBR) in AFHQ Stenographer Service on temporary basis w.e.f. 23 August, 1990 (AN) for a period of upto and including 31-12-90, or till person from the select list become available, whichever is earlier.

2. This appointment is purely on temporary basis and she can be reverted without notice for administrative reasons. She will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will her service rendered on temporary basis reckon for seniority.

TS SIAL, Dy. Chief Administrative Officer

## COAST GUARD

No. 1384, dated 13th September, 1990.—The President is pleased to make the following appointments :—

- (a) DIG (GD) AK Sharma (0181-J)—Promoted to the rank of IG (GD) wef 01 Jun 90.
- (b) Dy Comdt (Tech) AK Dey (4006D)—Promoted to the rank of Acting Comdt (Tech) wef 02 May 90.
- (c) Asst Comdt (GD) KR Nautiyal (0070-J)—Promoted to the rank of Dy Comdt (GD) wef 03 May 90.
- (d) ADH P Devarajan (00811-T)—Promoted to the rank of Asst Comdt (GD) and allotted P. No. 0257-J wef 01 Jun 90.
- (e) PSE M Rai (07104-W)—Promoted to the rank of Asst Comdt (Tech) and allotted P. No. 4068-S wef 01 Jun 90.
- (f) Sh. Donny Michael (0258L)—Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years with effect from 06 Jul 90.
- (g) Shri Sanjay Trikha (0259-M)—Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years with effect from 06 Jul 90.

(h) Shri Mukul Garg (0260-P)—Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years with effect from 06 Jul 90.

(j) Shri PK Mishra (0261-Q)—Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years with effect from 06 Jul 90.

(k) Shri Shree Kumar (0262-S)—Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years with effect from 06 Jul 90.

(l) Shri Anil Kumar P (0265-C)—Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years with effect from 06 Jul 90.

(m) Shri T Raghuraman (0263-V)—Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years with effect from 07 Jul 90.

(n) Shri Praveen Kumar Mishra (0264-X)—Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years with effect from 07 Jul 90.

(o) Shri NG Raveendran (4069-V)—Appointed as Asst Comdt (Tech) on probation for 2 years with effect from 06 Aug 90.

NCS NEGI, Under Secy.

## (NAVY BRANCH)

## NAVAL HEADQUARTERS

No. 1385, dated 25th September, 1990.—The following Assistants are appointed as Officiating Assistant Civilian Staff Officers on local basis for the period mentioned against each or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

(a) Shri ND Saluja—18-6-90 to 31-8-90

(b) Shri SK Saini—02-7-90 to 31-8-90

(c) Shri Satva Dev—02-7-90 to 07-9-90

TS SIAL, Up Mukhya Prashasan Adhikari

## (ARMY BRANCH)

No. 1386, dated 29th August 1990.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

SC Sharma (IC 35320), RK Pandey (IC 35321) Inf, Tejinder Singh (IC 35327) Arty, BNS Kumar (IC 35328), Anil Bhatia (IC 35329) Inf, SK Taneja (IC 35330) Arty, VK Kaushal (IC 35332) Inf, MN Rao (IC 35333) AC, Daljinder Singh (IC 35335), K Das (IC 35336) Inf, K Rajamani (IC 35338) AC, GP Kale (IC 35339), BNP Chandran (IC 35340) Inf, DS Sandhu (IC 35342) Inf, JN Upadhayaya (IC 35343) Engrs, Ashok Kumar (IC 35344) AOC, Daljeet Singh (IC 35345) AC, Anil Kumar Vaid (IC 35346), NKM Bhatnagar (IC 35347) Inf—10 Jun 89.

SD Gurung (IC-35325) Arty—10 Jun 89 (But for pay and allowances wef 04 Sep 89).

T. M. Sharma (IC-27008) Inf—31 Jul 84. (But pay and allowances from 4 Feb 85).

RK Singhal (IC 39029) EME, Ravendra Kumar (IC 39031) EME, SK Raina (IC 39034), Naresh Chander (IC 39038), Rajinder Kumar (IC 39040) Engrs, VK Sharma (IC 39041), JP Sahu (IC 39044) EME, Pramod Sharma (IC 39045) Engrs,

Sunil Shangloo (IC 39047) EME, Ashwani Kumar (IC 39049), AK Nanda (IC 39052) EME, Debasish Majumdar (IC 39058) EME—11 Jun 89.

MS Kalti (IC-39048), Rabinder Singh (IC-39055). Amitabh Kumar (IC-39057) Engrs 11 Jun 89 (But for Pay and allowances wef 04 Sep 89).

Narender Singh (IC 35108) Engrs, Rajeev V Kanitkar (IC 35109) AC, RK Singh (IC 35111) Inf, S Sridhar (35112) AC, HS Nandra (IC 35113) EME, Devendra Kapur (IC 35114), Jagbir Singh (IC 35115), Deepak Mehta (IC 35116). Ranjit Singh Minhas (IC 35119) Inf, MK Bawa (IC 35120), Gobindar Singh (IC 35121) AC, BS Chauhan (IC 35122) Inf, PM Cariappa (IC 35124) Sigs, MN Purushothama (IC 35125), Dinesh Syal (IC 35126) Arty, JJ Crasto (IC 35129) Inf, AS Chaudhari (IC 35131) AC, G Sankaranarayanan (IC 35130) Inf, Narjit Singh (IC 35133) AC—10 Jul 89.

YK Mathur (IC 37232) Arty, OP Yadav (IC 37233), Raj Kumar (IC 37234), Jai Prakash (IC 37236) Inf, M Arumugam (IC 37237) Engrs, YK Puri (IC 37240) AC, Jagdish Chander (IC 37241), KS Rana (IC 37242) Inf, J Frederick (IC 37243) Arty, Rajan Kulkarni (IC 37245) Inf, V Santhanam (IC 37246) Arty, KM Ganapathy (IC 37249) Inf, KR Sasi Kumar (IC 37254) Arty, Ashish Dass (IC 37255), RS Manral (IC 37256) Inf, BC Varghese (IC 37258), Sandeep Kumar (IC 37259) Engrs, Dinesh Kumar (IC 37260) Arty, MS Samra (IC 37261) Inf, PK Uppal (IC 37264) AC, K Mohan Dasan (IC 37265) Arty, AK Dixit (IC 37266) AOC—16 Nov 89.

Balbir Singh Kochar (IC 35269) Arty, PK Jhamb (IC 35270) AOC, Anil Sud (IC 35271) EME, GV Warriar (IC 35273) AC, Vinod Kumar (IC 35274) Inf, R.K. Agnihotri (IC 35276) Arty, DK Rai (IC 35277), SD Redkar (IC 35278), SS Rathore (IC 35280) Inf, CBS Rathore (IC 35281) AC, RS Randip (IC 35283) Int, Vikas Joshi (IC 35284) Arty, PK Sodhi (IC 35285) ASC, Deepak Mehrotra (IC 35286) Inf, SS Dhindsa (IC 35287) Arty, MS Mohan (IC 35291), Shyam Singh (IC 35292) AC, KF D' Lima (IC 35293) Inf, BG Rawat (IC 35294) AOC—10 Jun 89.

GS Khera (IC 35289) ASC 10 Jun 89 (Pay and allowances wef 04 Sep 89).

YS Chauhan (IC 37107) Inf, Bahadur Singh (IC 37108) ASC, AK Sinha (IC 37110), Rai Singh (37112), Praveen Chandra (IC 37113) Inf, KS Grewal (IC 37114) AOC, SP Sharma (IC 37119), AK Chand (IC 37120) Arty, Surla Satyam (IC 37122), RS Kadian (IC 37123), MS Rekhi (IC 37124), Rajeshwar Sharma (IC 37125), Raghuvir Singh (IC 37128) Inf, SR Nath (IC 37130) Engrs, NK Bakshi (IC 37132) Arty, VG Sundaravelu (IC 37134) Inf, Sunil Sharma (IC 37135) Sigs, Harsukh Singh Pall (IC 37136) AC, SS Gil (IC 37138) Inf, SK Gupta (IC 37141) Inf, Indermal Kohli (IC 37145) ASC, SS Mann (IC 37146) Mech Inf, JR Sharma (IC 37147) Arty, MS Prakash (IC 37148) AOC—01 May 89.

RK Sharma (IC 37045) Mech Inf, DK Thapliyal (IC 37046) Inf, Rakesh Bakshi (IC 37047) AC, KS Rathore (IC 37049) Inf, MPS Mainee (IC 37051), GK Mediratta (IC 37050) Arty, RK Singh (IC 37053) Mech Inf, RNG Dastidar (37055) Mech Inf, HR Tiwari (IC 37058), BN Lawrence (IC 37059), Bharat Bhushan (IC 37060) Arty, SA Ali (IC 37061), Sajjan Lal (IC 37063) Inf, PS Nehra (IC 37064) ASC, Samai Singh (IC 37065) Inf, JS Rajna (IC 37068) Inf, RK Shah (IC 37070) Inf, Bhagwan Singh (IC 37071) Sigs, D'Souja MJ (IC 37072) Inf, SS Khola (IC 37073) Arty—01 May 89.

Ashwani Sharma (IC 37078), Ravi Kant Dewan (IC 37081) Inf, Ravinder Singh (IC 37082) AC, BS Riar (IC 37085) Arty, KPS Hanspal (IC 37088), Anup Yadav (IC 37089) Arty, CS Rathore (IC 37090) Inf, Aidan Singh (IC 37091) ASC, VW Vaidya (IC 37092), Kanwar Manmehg Singh (IC 37093), GPS Katal (IC 37095), Arun Gupta (IC 37096) Inf, S Parameswaran (IC 37097), Hari Dev Vaid (IC 37098) Rajinder Singh Bajwa (IC 37099), Surinder Pal

Singh (IC 37100) Arty, Kulwinder Singh (IC 37102) Arty, RS Buche (37103) Inf 01 May 89.

Rakesh Bassi (IC 35134) Engrs, Rajan Prabhakar (IC 35135) S'gs, DS Negi (IC 35136), PM Hariz (IC 35137) Inf, Rakesh Mehta (IC 35139) Inf, BC Sarmah (IC 35140) Inf, T.S. Datta (IC 35141), Rahul Gupta (IC 35142), Rakesh Bhatia (IC 35143) Arty, JS Matharu (IC 35145) EME, Rup Chand Jaswal (IC 35146) AOC, SK Chabra (IC 35147) AC, D.S. Gawande (IC 35148) Arty, Ashok Kumar (IC 35149) Inf, Niraj Pathak (IC 35150) AC, SS Rautela (IC 35151) Inf, Warun Nayar (IC 35152) AC, VRR Pillai (IC 35154) Inf, GS Tiwana (IC 35155) Arty, Anil Sharma (IC 35157) Inf, RS Chauhan (IC 35159) Inf, AK Siwach (IC 35160) Inf—10 Jun 89.

Jaipal Singh (IC 35549) Arty, Sanjeev Shukla (IC 35550) AC, Pradeep Bhatnani (IC 35551) Engrs, Sunil Sharma (IC 35553) Inf, Ravinder Singh (IC 35554) Arty, Kamal Kalia (IC 35555) Inf, IS Sandhu (IC 35556) AOC, Rohitash Jetley (IC 35557), Mohammed Sajjad (IC 35558) Inf, Harinder Bhanot (IC 35559) EME, Jyotirmoy Ghosal (IC 35560) Inf, Sanjay Sharma (IC 35561) Sigs, Dilip Kumar (IC 35562) Arty, BK Jain (IC 35563), Balwan Singh (IC 35564) Inf, KSN Sukumaran (IC 35565), MJ Mathew (IC 35566) Arty, KR Singh (IC 35568) AOC, Ajit Singh (IC 35569) Int, AK Chaturvedi (IC 35570) Arty, RS Nirban (IC 35572) Inf, JS Gill (IC 35573) Arty—16 Dec 89.

Praveen Chand Katoch (IC 35574) Arty, JS Goet (IC 35576) Inf, Shankar Kallat (IC 35577) Arty, Dhananjay Binda (IC 35578), Satish Chander (IC 35579), KKV Shanbhag (IC 35580) Inf, Chandra Prakash (IC 35581) Arty, PS Sandhu (IC 35582) Inf, Baljit Singh (IC 35583) AOC, Bhupinder Singh (IC 35586), Beant Parmar (IC 35587), RC Saklani (IC 35588) Inf, DS Nanuan (IC 35589), Ranjit Chatterjee (IC 35590) Arty, Gurvinder Singh (IC 35592) Arty, Dipak Kanti Das (IC 35594), SS Hora (IC 35595), DK Nanda (IC 35596) Arty, SS Gundewar (IC 35597) Inf—16 Dec 89.

AK Wahi (IC 39398) Engrs, VBI Pachauri (IC 39400) EME, DKC Kadu (IC 39401) Engrs, Vikram Singh (IC 39402) EME, Deepak Gupta (IC 39403) Engrs, RP Mund (IC 39406) Engrs, RK Semwal (IC 39408) Engrs, Debchaman Patil (IC 39410) Engrs, AP Chaudhary (IC 39412) EME, PB Pandurangi (IC 39414) Engrs, SK Sharma (IC 39416) Sigs, VP Sharma (IC 39419) EME, Chandra Kanth T M (IC 39422) Engrs, KN Singh (IC 39426) EME, SC Gupta (IC 39429) Engrs—17 Dec 89.

KS Choudhary (IC 35520) Inf, Sanjaya Saran (IC 35521), NP Rarilal (IC 35522) Arty, TS Bhindsa (IC 35523) Inf, Amarendra Sinha (IC 35524) AC, UCS Rawat (IC-35525), PS Basera (IC 35526) Inf, VK Yadav (IC 35527), Ujjagar Singh (IC 35528), Thonnamuthu Samson (IC 35529) Arty, PK Tamang (IC 35531) Inf, GS Reen (IC 35532) Arty, Pradeep Bakshi (IC 35533), JL Todkar (IC 35535), AKN Sreedharan (IC 35536) Inf, G Vardharajulu (IC 35537) Arty, Neeraj Bali (IC 35538) Inf, OP Yadav (IC 35539) AOC, IS Bains (IC 35540) Inf, VK Pathak (IC 35541) Arty, BB Gurung (IC 35542) Inf, TK Mukharjee (IC 35543) Arty, R.P. Naikavde (IC 35546) Inf, SK Samantray (IC 35548) Arty—16 Dec 89.

Sandeep Kumar (IC 35468), Parminder Singh Rai (IC 35469) Inf, Amitava Kundu (IC 35470) AC, Bipin Rawat (IC 35471), M.M. Shukla (IC 35474), Avtar Singh (IC 35476), JS Verma (IC 35477) Inf, DS Trehan (IC 35478) AC, BS Negi (IC 35479), Surinder Singh (IC 35480) Inf, Rajiv Narayanan (IC 35481) AC, Shailendra Kaushik (IC 35482) Engrs, Sanjeev Kumar (IC 35483) Inf, Rajiv Talwar (IC 35485) AC, NPS Hira (IC 35487) Inf, Rajeevan Gopal-krishnan (IC 35488) Arty, PS Badal (IC 35489) Inf, NP Murlidharan (IC 35490) Sigs, PS Mehla (IC 35491) ASC, D.A. Patil (IC 35492) Inf, Subrata Saha (IC 35494) Inf—16 Dec 89.

Mullapuli Sudarshan (IC 35762) Inf, RK Sinha (IC 35763) Arty, PK Sarkar (IC 35765) Inf, MIS Chauhan (IC 35766) Inf, PB Murthy (IC 35767) AOC, AK Sharma (IC 35768) Arty, Manoj Gupta (IC 35770) AOC, Ashok Clifton (IC 35772) Inf, SK Suresh (IC 35775) Arty, HK Vaidya (IC 35776) Inf, Devinder Singh (IC 35778) Arty, Tummala Amarnath (IC 35779) Arty, Vijay Kumar (IC 35780) Inf, Anand Basera (IC 35781) Inf, Jayesh Saini (IC 35782) Inf,

Venkatraman Meenakshisundaram (IC 35785) Int, Ajai Yadav (IC 35787) Inf, KR Singh (IC 35788) Arty, Ranjit Singh (IC 35789) AEC—16 Dec 89.

R.S. Khatri (IC 35801), P Vadakumthani (IC 35810), JM Sharma (IC 35812), P Chakraborty (IC 35833), V Baskaran (IC 35853), Rajinder Singh Nehra (IC35865) AEC, CS Nair (IC 35874) JAG—16 Dec 89.

Satyanarayan Yadav (IC 35496), JS Sura (IC 35497) Arty, MR Babu (IC 35499) Inf, FS Karamot (IC 35500) Arty, KA Muthanna (IC 35501), HS Pathania (IC 35502) Inf, MS Wadhwa (IC 35503) EME, Neeraj Mishra (IC 35504) Arty, AK Krishna (IC 35505) Engrs, Atul Mehra (IC 35506) Sigs, PS Mehta (IC 35507) AC, RK Jakhar (IC 35508), JP Thiruvangadan (IC 35509) Inf, DK Nanda (IC 35510) ASC, Bharat Bhushan (IC 35511) Inf, Jayaraj Azaria (IC 35512), Kudwant Singh (IC 35513), VK Madan (IC 35514) Arty, BS Das (IC 35515), Sanjay Kishore (IC 35516) Inf, Santokh Singh (IC 35517) AOC, Sudhir Sinha (IC 35518) AC, DV Tomar (IC 35519) Inf—16 Dec 89.

MNS Murthy (SL 2330), MR Katoch (SL 2332), PN Sharma (SI. 2333), RK Chaubey (SI. 2334), Dalip Singh (SL 2336)—30 Jul 89.

S. Muniyandi (SI. 2325)—04 Aug 89.

PK Muralidharan (SI. 2742)—13 Jun 89.

IS Guleria (SI. 2298), NS Sandhu (SI. 2300), GP Bartwal (SL 2302), DP Singh (SL 2303), BD Singha (SL 2304), PA Nair (SL 2305), Atam Singh (SL 2312), JT Appai (SL 2313), AS Maan (SI. 2314), JJ Singh (SL 2315), Joga Singh (SL 2319), S Chevan (SL 2320), Mukhtiar Singh (SL 2322), Dara Singh (SL 2316), Kashmir Singh (SL 2318), PK Narayanan (SL 2324), CKR Krishnan (SL 2326), P Swamidasan (SI. 2327), Babu Singh (SL 2329)—30 Jul 89.

Dinesh Tanwar (IC 35656) Inf, Rajiv Sud (IC 35657) Sigs, KD Pendharkar (IC 35658) INT, OS Mani (IC 35659) Arty, Mathan Gandhi (IC 35660) Arty, SE Rokhale (IC 35661) Inf, Sudhir Nagalia (IC 35662) Engrs, AS Savant (IC 35663) AC, Anil Wadiwala (IC 35664) AOC, Jayant Krishna (IC 35665) Inf, Gautam Kar (IC 35667) Arty, Ashutosh Mishra (IC 35668) AC, MC Ponnappa (IC 35669) Inf, Robin Brajbasi (IC 35670) Arty, Samson Tewari (IC 35671) EME, Surinder Singh (IC 35672) Arty, Kanwal Dhody (IC 35673) Sigs, GKS Kumar (IC 35674) Inf, SC Khanna (IC 35675) Engrs, SM Dravid (IC 35676) Sigs, AJ Singh (IC 35677) Arty, Baldev Singh (IC 35680) Inf—16 Dec 89.

SD Bhandare (IC 35681) Arty, KS Jos (IC 35682), Baljit Singh (IC 35683), Sandes (IC 35684) Inf, NS Negi (IC 35686) Pnr, AD Kavalakait (IC 35687) AOC, Arjun Gupta (IC 35688) Inf, Rajiv Kapur (IC 35689) Arty, Sanjay Chowdhary (IC 35690) Inf, Maninder Johar (IC 35693) AC, Anun Kotnala (IC 35695), Preetinder Singh (IC 35697), Manobendra Roy (IC 35699) Inf, Dinesh Malhotra (IC 35700) Arty, DV Deswal (IC 35701) ASC, Krishna Menon M (IC 35702) Arty, APC Rao (IC 35703) Inf, Birendra Kumar (IC 35705) AOC, SS Sirohi (IC 35706) ASC, NS Yogesh (IC 35708) Inf—16 Dec 89.

K Subramanian (SL 2270), KR Salunke (SL 2271), K Paramsvam (SL 2272), Kulwant Singh (SL 2274), JS Cheema (SI. 2279), Bharat Singh (SL 2281), GR Chonkan (SL 2283), PS Bhaskaran (SL 2284), RS Sharma (SL 2285), Gurbaksh Singh (SL 2286), Shanmukham (SL 2287), AS Khajharia (SL 2288), Rattan Singh (SL 2289), BS Sohail (SL 2291), Prithi Singh (SL 2293), MS Rana (SL 2294), PS Malhan (SI. 2295), Gurcharan Singh (SL 2297)—30 Jul 89.

G Sankaran (IC 36062) Arty 09 Jul 86 and Mandeep Singh (IC 36116) Inf—09 Jul 86 (Pay and allowances 22 May 89).

PS Shekhawat (IC 37201) ASC, KC Pant (IC 37202), VK Sharma (IC 37203), Binoy Poonnen (IC 37204) Inf.

MA Chaudhary (IC 37205) Arty, Mam Chand Chauhan (IC 37209) ASC, Satish Padmanabh (IC 37210), Devinder Kumar Dadwal (IC 37211) Inf, NJ Solanki (IC 37212) Sigs, TP Singh (CC 37213) AC, LB Swaminathan (IC 37214) Arty, NK Singh (IC 37215), YS Andotra (IC 37216) Inf, Utam Singh (IC 37220), Romy Sakharia (IC 37222) Inf, CR Devanathan (IC 37226) Engrs, Sudhir Chawla (IC 37227) Inf, AK Sharma (IC 37230) Inf, PS Sandhu (IC 37231) AOC—16 Nov 89.

RK Talukdar (IC 35161), KK Sharma (IC 35162) Inf, SK Aneja (IC 35163) EME, RP Lobo (IC 35164) Inf, BS Bisht (IC 35165) Arty, TG Mathur (IC 35166) AC, Yashwant Singh (IC 35167) EME, SK Sinha (IC 35168) Arty, RE Koshy (IC 35170) Engr, Rajbir Singh (IC 35171), Sanjiv Bhalla (IC 35172), RJ Noronha (IC 35173) Inf, Rajeev Joneja (IC 35174) Sigs, Ranjan Tandon (IC 35176) AC, VS Nim (IC 35177) Inf, RS Chillar (IC 35178) AOC, Akhil Gupta (IC 35179) Arty, S Chakraborty (IC 35181) Arty, AV Garde (IC 35182), Kuldip Singh (IC 35183) Inf, BS Rathore (IC 35184), SS Malik (IC 35185) Arty, CS Dayal (IC 35186) Inf—10 Jun 89.

K Sheik (IC 35736) Arty, Sunil Kasture (IC 35738), Sudarshan Singh (IC 35739), RD Kaushik (IC 35740), PB Karki (IC 35742) Inf, DS Rana (IC 35744), Rakesh Dubey (IC 35747), Mahesh Kumar (IC 35748) Inf, AR Chaudhury (IC 35750), BL Das (IC 35751) Arty, VS Yadava (IC 35752) Inf, NA Mojtra (IC 35755) AOC, AK Shrivastava (IC 35756) Inf, Nirupan Chaturvedi (IC 35758) AC, Sudhir Sood (IC 35759) Arty, Vivekanand Kodikal (IC 35761) Inf, Sunil Kapoor (IC 35743) AC—16 Dec 89.

AK Ghosh (IC 35099) Sigs—04 Sep 87 (Pay and allowances wef 04 Sep 89).

Narinder Kumar (IC 35348) ASC, Charan Jeet Singh (IC 35350), U Chembath (IC 35351) Inf, RD Guptey (IC 35355) AOC, KS Bisht (IC 35356) Inf, CM Malhotra (IC 35357) AC, Rakesh Virmani (IC 35360) Inf, RS Bavan (IC 35361) Arty, SK Sinha (IC 35364) INT, Rajiv Johri (IC 35365), Pallav Desai (IC 35366) Arty, M Gridhar (IC 35367), Vinod Kumar (IC 35368) Inf, AP Singh (IC 35371) AOC, Harinder Singh Sahi (IC 35373), P Mandotra (IC 35375) Inf, Gautam Deb (IC 35376) INT, TR Chopra (IC 35382) Arty, RS Rajput (IC 35383) AC, SN Mohammad (IC 35385) AC—10 Jun 89.

Suresh Sharma (IC 35363) Arty, Ajay Dubey (IC 35381) Inf, PS Dadwal (IC 35384) ASC 10 Jun 89 (Pay and allowances wef 04 Sep 89).

Surender Kumar (IC 35709) Inf, Naveen Khullar (IC 35711) AC, Joseph Gerald (IC 35712), Paul George (IC 35713), Gurdeep Singh (IC 35714), BPK Pillai (IC 35715) Inf, Govindrajan Srinivasan (IC35717) Arty, Narinder Singh (IC 35719) ASC, NK Mathur (IC 35720) Arty, Raghavan Vinod Kumar (IC 35721) Inf, Ajoy Chattopadhyay (IC 35723) Inf, MS Sandhu (IC 35724) Inf, KP Ravendran (IC 35725) AOC, Satyanarayana Sista (IC 35726) Arty, Sudhir Singh (IC 35727) Inf, Vadakedath Ravi (IC 35728), SK Basu (IC 35729) Arty, Unnikrishnan Nair (IC 35730) AC, TM Subramanian (IC 35732) Inf, RS Dagar (IC 35733) Arty, VT Xavier (IC 35734) Inf—16 Dec 89.

RC Mathew (IC 38598) EME 22 Dec 88.

#### REGULAR ARMY

Capt to be Major

V Binopal (IC-36825) Arty—20 Apr 1988 (Pay and allowances w.e.f. 22 May 1989).

Brij Mohan (IC-37094) Inf, Bhaskar Roy (IC-37074) EME, RP Nair (IC-37140) Arty 01 May 1989 (For pay and allowances w.e.f. 04 Sep 1989).

YC GUPTA, Lt Col AMS-8

No. 1387, dated 28th September 1990.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

AK Bhandari (MR-04168K) AMC, 26 January 1986.

(Min. of Def. Notn. No. 2291 dated 20 October 1987 published in Gazette of India dated 12 December 1987 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

YS Gulati (MR-05706) AMC, 16th June 1990.

S. CHAKRABORTY, Maj. Gen., Dy. DGAFMS

No. 1388, dated 11th September 1990.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Defence Security Corps

To be Sub Maj

Sub Yankappa Shingari (JC-100770-F), 01 June 1990.

Sub Inder Deo Singh (JC-98755-L), 01 June 1990.

Sub Sua Lal (JC-100298-K), 01 July 1990.

To be Sub

Nb Sub Rameshwar (JC-104941-A), 05 Dec 1989.

Nb Sub Manohar Singh (JC-83593-N), 01 Mar 1990.

Nb Sub Tek Bahadur Chettri (JC-86694-M), 01 Apr 1990.

Nb Sub Narendra Singh Thapa (JC-65772-L), 01 Apr 1990.

Nb Sub Uttam Chand (JC-85200-L), 13 Apr 1990.

Nb Sub Bishamber Singh (JC-66197-F), 01 May 1990.

Nb Sub Avadhesh Bahadur Singh (JC-83903-N), 01 May 1990.

Nb Sub Rup Ram (JC-125058-X), 01 May 1990.

Nb Sub Har Singh (JC-125028-A), 01 May 1990.

Nb Sub Tulsi Ram (JC-128582-W), 01 May 1990.

Nb Sub Kirpal Singh Sehgal (JC-125052-W), 01 May 1990.

Nb Sub Chhagan Lal (JC-72139-N), 01 May 1990.

Nb Sub Dharam Singh (JC-107687-M), 01 May 1990.

Nb Sub Suresh Chandra (JC-127173-W), 01 May 1990.

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-128588-X), 01 May 1990.

Nb Sub Chhattar Singh (JC-130124-Y), 01 May 1990.

Nb Sub Daya Nand (JC-125019-Y), 01 May 1990.

Nb Sub Nawal Singh (JC-125038-K), 01 May 1990.

Nb Sub KK Surendran (JC-49108-F), 01 May 1990.

Nb Sub Sukadev Aher (JC-125020-N), 26 May 1990.

Nb Sub Ram Avtar (JC-125017-N), 01 June 1990.

Nb Sub D Kasaiah (JC-125056-M), 01 June 1990.

Nb Sub Birham Singh (JC-78380-W), 01 June 1990.

Nb Sub Ram Saran (JC-74032-X), 01 June 1990.

Nb Sub Jagat Ram (JC-84464-A), 01 June 1990.

Nb Sub Bashamber Dass Dharwal (JC-91419-W), 01 June 1990.

Nb Sub Vakil Singh (JC-95057-X), 01 June 1990.

Nb Sub Rattan Chand (JC-109176-F), 01 June 1990.

Nb Sub Sakatar Singh (JC-82824-M), 01 June 1990.

Nb Sub Damodar Rajguru (JC-125025-M), 01 July 1990.

Nb Sub Keshav Pal Singh (JC-127193-K), 01 July 1990.

Nb Sub Shiv Prasad (JC-128585-K), 01 July 1990.

Nb Sub Dukh Haran Ram (JC-127190-W), 01 July 1990.

Nb Sub Samai Singh (JC-127188-Y), 01 July 1990.

Nb Sub Rattan Singh (JC-137163-A), 01 July 1990.

Nb Sub Atfar Singh (JC-129511-F), 01 July 1990.

Nb Sub Diwan Singh (JC-130130-M), 01 July 1990.

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (Clerks GD/SKsT)  
Sub Mahesh Ram (JC-105197A), 1st Aug 1990.

To be Substantive Subedar (Clerks GD/SKsT)

Nb Sub Munsha Singh (JC-143874W), 1st Aug 1990.

Nb Sub Karan Singh (JC-136792L), 1st Aug 1990.

Nb Sub Onkar Narain (JC-143873N), 1st Aug 1990.

Nb Sub Bihari Lal (JC-144757X), 1st Aug 1990.

Nb Sub Prem Chand (JC-144758A), 1st Aug 1990.

Nb Sub K Sivanandan (JC-144759), 1st Aug 1990.

Nb Sub Nadakkal Bhaskaran (JC-143869L), 1st Aug 1990.

Nb Sub Paramjit Singh (JC-143870A), 1st Aug 1990.

Nb Sub Kewal Singh (JC-144274A), 1st Aug 1990.

Nb Sub Ram Kumar Ram (JC-146720P), 1st Aug 1990.

T. B. NAIR, Desk Officer

No. 1389, dated 20th September 1990.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

LADAKH SCOUTS

To be Naib Subedar

Hav Lotus Jikmed (9920825W now JC-196707F), 01 Sep 1989.

Hav Tsering Wangdus (9920988K now JC-196708K), 01 Sep 1989.

Hav Chhewang Murup (9921268P now JC-196709M), 10 Feb 1990.\*

Hav Phunchok Tundup (9920844F now JC-196710F), 01 Sep 1989.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Sep 1989 without effect on pay and allowances).

5 GR (FF)

To be Nb Sub

Hav Rudra Bahadur Thapa (No. 5442974H now JC-196688F), 30th Dec 1989.

Hav Mohan Singh Thapa (No. 5443361P now JC-196689K), 30th Dec 1989.

Hav Ram Bahadur (No. 5443507X now JC-196690Y), 30th Dec 1989.

Hav Kajiman Gurung (No. 5444287L now JC-196691F), 30th Dec 1989.

Hav Surja Bahadur Gurung (No. 5443611L now JC-196692K), 30th Dec 1989.

Hav Dhan Bahadur Gurung (No. 5443873F now JC-196682A), 1st Oct 1989.

Hav Nanda Bahadur Pun (No. 5443933L now JC-196683-H), \*5th Dec 1989.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 7th Oct 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Suk Bahadur Gurung (No. 5443833A now JC-196684L), \*\*14th Dec 1989.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Dilli Raj Chhetri (No. 5443942M now JC-196685-N), 1st Nov 1989.

To be Nb Sub (Cik)

Hav (Cik) Ishwar Singh Gurung (No. 5442646P now JC-196686W), 1st Feb 1990.

Hav (Cik) Purusottam Dutt Bhatt (No. 5442679A now JC-196687Y), 1st Feb 1990.

8 GR

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Cik) Bansh Raj (No. 5743607F now JC-196698L), 1st Nov 1989.

Hav (Cik) Gopal Singh Gurung (No. 5743654Y now JC-196699N), 1st Dec 1989.

Hav (Cik) Ganesh Prasad Sharma (No. 5743653W now JC-196700X), 1st Dec 1989.

Hav (Cik) Bhoolan Prasad Nishad (No. 5743703W now JC-196701A), 1st Jan 1990.

Hav (Cik) Raghubir Singh Chauhan (No. 5743652N now JC-196702H), 1st Jan 1990.

Hav (Cik) Subhakaran Prasad Harijan (No. 5743728H now JC-196703L), 1st Jan 1990.

Hav (Cik) Pashupati Pradhan (No. 5743737K now JC-196704N), 1st Feb 1990.

Hav (Cik) Sant Raj Yadav (No. 5743784F now JC-196705W), 1st Feb 1990.

Hav (Cik) Gajendra Singh Thapa (No. 5743896F now JC-196706Y), 1st Feb 1990.

5 GR (FF)

To be Nb Sub (Cik)

Hav (Cik) Bijoy Kumar Malik (No. 5442645M now JC-196693M), 1st Jan 1990.

To be Nb Sub

Hav Chandra Bahadur Ale (No. 5443823W now JC-196694P), 1st Nov 1989.

Hav Rajendra Raj Thakuri (No. 5444151F now JC-196695X), \*27th Jan 1990.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Dec 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Kishan Bahadur Ale (No. 5444152K now JC-196696A), 1st Dec 1989.

Hav Hasta Bahadur Thapa (No. 5444221P now JC-196697H), \*\*24th Dec 1989.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Dec 1989 without effect on pay and allowances).

5 GR (FF)

To be Nb Sub (Cik)

Hav (Cik) Vishnu Singh (No. 5442668N now JC-196680P), 23rd Dec 1989.

To be Nb Sub

Hav Ganesh Bahadur Gurung (No. 5442718N now JC-196681X), \*3rd Feb 1990.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Jan 1990 without effect on pay and allowances).

9 GR

To be Nb Sub

Hav Gahendra Bahadur Chhetri (5841271H now JC-196678X), 1st Jan 1990.

Hav Min Bahadur Khattri (5841311Y now JC-196679-A), 1st Jan 1990.

3 GR

To be Nb Sub

Hav Ram Bhakat Gurung (6240004X now JPC-196665A), 13th Jan 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Dec 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Kaji Babu Thapu (5240417K now JC-196666H), 23 Jan 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Dec 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Krishna Bahadur Thapa (5240334W now JC-196667L), 25th Dec 1989.

Hav Lil Bahadur Thapa (5240369M now JC-196668N), 30th Dec 1989.

Hav Nand Lal Pun (5240387P now JC-196669W), 2nd Jan 1990.

Hav Netra Bahadur Gurung (5240818W now JC-196670-L), 1st Feb 1990.

Hav Jham Bahadur Gurung (5240906M now JC-196671-N), 1st Feb 1990.

Hav Gam Bahadur Gurung (5239483X now JC-196672-W), 27th Feb 1990.

Hav Prasad Rana (5242626X now JC-196673Y), 27th Feb 1990.

Hav Man Bahadur Thapa (5240120A now JC-196674F), 27th Feb 1990.

Hav Dil Bahadur Thapa (5240133X now JC-196675K), 27th Feb 1990.

Hav Hari Prasad Gurung (5240146P now JC-196676M), 27th Feb 1990.

Hav Okil Bahadur Chhetri (5240204N now JC-196677P), 27th Feb 1990.

## 4 GR

To be Nb Sub

Hav Chandra Bahadur Gurung (No. 5341578L now JC-196663P), 1st Feb 1990.

Hav Chandra Bahadur Rana (No. 5342115H now JC-196664X), 1st Mar 1990.

Hav Kuldip Singh Gurung (No. 5340985F now JC-196654N), 1st Dec 1989.

Hav Man Prasad Gurung (No. 5340895A now JC-196655W), 1st Dec 1989.

Hav Prem Bahadur Roka (No. 5340613W now JC-196656Y), 1st Dec 1989.

Hav Anil Kumar Thapa (No. 5341703K now JC-196657-F), 1st Dec 1989.

Hav Mohan Singh Gurung (No. 5340573A now JC-196658K), 25th Jan 1990.

Hav Nar Bahadur Thapa (No. 5340736H now JC-196659M), 1st Feb 1990.

Hav Bem Bahadur Thapa (No. 5340485K now JC-196660F), 1st Feb 1990.

Hav Man Singh Gurung (No. 5340906F now JC-196661-K), 1st Feb 1990.

Hav Luk Bahadur Thapa (No. 5341109H now JC-196662M), 1st Feb 1990.

## 11 GR

To be Nb Sub

Hav Amar Bahadur Rai (9413489K now JC-196649H), 20th Feb 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances w.e.f. 15 November 1989).

Hav Rajon Tawang (9413417A now JC-196650X), 07th Dec 1989.

Hav Tek Nath Rai (9413436L now JC-196651A), 01st Jan 1990.

Hav Sangbo Dukpa (9413146N now JC-196652H) 14th Feb 1990.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances w.e.f. 01 Jan 1990).

Hav Dhan Bahadur Rai (9413467L now JC-196653L), 01st Feb 1990.

Hav Budhin Bahadur Limbu (9411489L now JC-196646-P), 01st Dec 1989.

Hav Jai Kumar Rai (9412400A now JC-196647X), 15th Dec 1989.

Hav Sukraj Subba (9412833X now JC-196648H), 01st Jan 1990.

Hav Ram Bahadur Rai (9412658N now JC-196641W), 13th Oct 1989.

Hav Dil Bahadur Limbu (9411224F now JC-196642Y), 16th Dec 1989.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances w.e.f. 01 Nov 1989).

Hav Ganesh Bahadur Limbu (9411675F now C-196643-F), 01st Nov 1989.

Hav Ramesh Kumar Thapa (9411702A now JC-196644-K), 01st Dec 1989.

Hav Narayan Prasad Limbu (9413587A now JC-196645-M), 01st Jan 1990.

## 1 GR

To be Nb Sub

Hav Kul Bahadur Gurung (No. 5039034Y now JC-196639-Y), 13th Dec 1989\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 1st Dec 1989).

Hav Rajender Singh Thapa (No. 5038979W now JC-196640-N), 19th Jan 1990\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 1st Dec 1989).

Hav Om Bahadur Gurung (No. 5037830W now JC-196623-N), 1st Jan 1990.

Hav Dal Bahadur Rana (No. 5038673N now JC-196624W), 1st Jan 1990.

Hav Reil Bahadur Thapa (No. 5038691W now JC-196625-Y), 1st Jan 1990.

Hav Govind Bahadur Gurung (No. 5040555Y now JC-196626F), 1st Jan 1990.

Hav Bikram Singh Thapa (No. 5038382N now JC-196627-K), 1st Jan 1990.

Hav Dal Bahadur Rana (No. 5038503K now JC-196628M), 1st Jan 1990.

Hav Nar Bahadur Mall (No. 5038481X now JC-196629P), 1st Jan 1990.

Hav Ravindra Singh (No. 5038220H now JC-196630K), 1st Jan 1990.

Hav Jhug Bahadur Thapa (No. 5038329H now JC-196631-M), 16th Jan 1990\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 1st Jan 1990).

Hav Rajendra Singh Gurung (No. 5038522P now JC-196632P), 1st Feb 1990.

Hav Duk Bahadur Gurung (No. 5038401N now JC-196633X), 1st Feb 1990.

Hav Ram Parsad Thapa (No. 5038891M now JC-196634A), 6th Feb 1990.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Ram Milan (No. 5037865Y now JC-196635H), 7th Feb 1990\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 1st Jan 1990).

Hav Clk Jai Prakash Verma (No. 5038120X now JC-196636L), 1st Jan 1990.

Hav Clk Roshan Lal (No. 5038119H now JC-196637N), 1st Feb 1990.

Hav Clk Charanji Lal Sharma (No. 5038122H now JC-196638W), 1st Feb 1990.

## JAK RIF

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav Clk Narinder Singh Pathania (No. 13732010K now JC-196603A), 1st Jan 1990.

Hav Clk Kartar Chand (No. 13732033L now JC-196604H), 1st Jan 1990.

Hav Clk Dilbagh Singh Paul (No. 9920896X now JC-196605-L), 1st Jan 1990.

Hav Clk Onkar Singh (No. 13732618Y now JC-196606N), 1st Feb 1990.

Hav Clk Prem Nath Sharma (No. 9920898H now JC-196607W), 1st Feb 1990.

To be Naib Subedar (GD)

Hav Swarn Singh (No. 13737063M now JC-196608Y), 5th May 1989.



Hav Roshan Lal (No. 13732177N now JC-196609F), 16th Jun 1989.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jun 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Raghunandan Singh (No. 13730759P now JC-196610W), 25th Nov 1989.

Hav Kehar Singh (No. 13730955P now JC-196611Y), 25th Nov 1989.

Hav Bishnu Prasad Jaisi (No. 13737683H now JC-196612F), 1st Dec 1989.

Hav Mast Ram (No. 13736739X now JC-196613K), 30th Dec 1989.

Hav Piar Singh (No. 13729409W now JC-196614M), 1st Jan 1990.

Hav Joginder Nath (No. 13729747N now JC-196615P), 1st Jan 1990.

Hav Malkiat Singh (No. 13731205H now JC-196616X), 1st Jan 1990.

Hav Gian Chand (No. 13732119K now JC-196617A), 1st Jan 1990.

Hav Vinod Kumar (No. 13732402X now JC-196618H), 1st Jan 1990.

Hav Jogeshwar Singh (No. 13732743H now JC-196619L), 1st Jan 1990.

Hav Rai Singh Patial (13733276H Now JC-196620A), 1st Jan 1990.

Hav Purna Bahadur Pun (No. 13731725N now JC-196621H), 12th Jan 1990.

Hav Parkash Chand (No. 13730588N now JC-196622L), 1st Feb 1990.

The Mahar Regiment

To be Nb Sub

PA/Hav Rajinder Kumar (No. 4548677K now JC-196602X), 03 Feb 1990.

The Bihar Regt

To be Nb Sub

Hav Shri Ram Yadava (No. 4250279H now JC-196596P), 1st Sep 1989.

Hav Hira Chand Bhagat (No. 4253549X now JC-196597X), 4th Nov 1989.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 1989 without effect on pay and allowances).

CHM Harihar Prasad (No. 4248555F now JC-196598A), 1st Jan 1990.

Hav Lakhindra Nath Jarika (No. 4252301F now JC-196549H), 1st January 1990.

Hav Hembram Kumar Ganeshwar Majhi (No. 4250608N now JC-196600M), 1st Jan 1990.

CHM Nagendra Mishra (No. 4249395Y now JC-196601P), 1st Jan 1990.

The Assam Regt

To be Nb Sub

Hav Bijit Kumar Ray (No. 4347506F now JC-196594K), 25th Dec 1989.

Hav Dhanesh Ch Brahma (No. 4347863K now JC-196595M), 25 Dec 1989.

Hav Dilip Kr Sangma (No. 4348621M now JC-196589Y), 1st Jan 1990.

Hav Lohit Chandra Rava (No. 4346860K now JC-196590N), 1st Jan 1990.

Hav WS Ango Anal (No. 4345914A now JC-196591W), 1st Jan 1990.

Hav K Amacho Mao (No. 4347132W now JC-196592Y), 10 Jun 90\*

Hav Rivanta Sutradhar (No. 4348607F now JC-196593F), 1st Jan 1990.

\*(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 1990)

The NAGA Regt

To be Nb Sub

CHM Pan Singh Rawat (No. 4160294W now JC-196582P), 1st Jan 1990.

The Kumaon Regt

To be Nb Sub

Hav Ramesh Chandra (No. 4159679F now JC-196567A), 1st Dec 1989.

Hav Narain Singh (No. 4160046A now JC-196568H), 1st Dec 1989.

Hav Trijlok Singh (No. 4160959F now JC-196569L), 1st Dec 1989.

Hav Chatur Singh (No. 4164735Y now JC-196570A), 1st Dec 1989.

Hav Lalit Kishore (No. 4160067W now JC-196571H), 6th Dec 1989\*

\*(Granted ante date seniority with effect from 01 Dec 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Narain Singh (No. 4158405K now JC-196572L), 1st Jan 1990.

Hav Rohtash Singh (No. 4161632P now JC-196573N), 1st Jan 1990.

CHM Inglish (No. 4162685A now JC-196574W), 1st Jan 1990.

Hav Sarjit Singh (No. 4161614M now JC-196575Y), 1st Jan 1990.

Hav Som Datt (No. 4162782X now JC-196576F), 1st Jan 1990.

Hav Sarjit Singh (No. 4162833A now JC-196577K), 1st Jan 1990.

Hav Daya Chand (No. 4162671A now JC-196578M), 1st Jan 1990.

CHM Kishan Chand (No. 4163391Y now JC-196579P), 1st Jan 1990.

Hav Laxmi Nurain Yadav (No. 4163894W now JC-196580K), 30th Jan 1990\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Jan 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Sheo Raj (No. 4168728A now JC-196581M), 19th Jan 1990\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Kumar Singh Rajput (No. 4166180F now JC-196558Y), 10th Sep 1989.

Hav Surender Singh Tanwar (No. 4168382F now JC-196559F), 10th Sep 1989.

Hav Pratap Ram (No. 4165518P now JC-196560W), 28th Oct 1989.

Hav Jang Bahadur Chand (No. 4165807K now JC-196561Y), 18th Nov 1989\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Nov 1989 without effect on pay and allowances).

CHM Bikram Singh (No. 4165446W now JC-196562F), 10th Jan 1990\*

\*(Granted ante date seniority wef 05 Dec 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Megh Singh (No. 4164846W now JC-196563K), 1st Jan 1990.

Hav Ashok Kumar (No. 4164442N now JC-196564M), 3rd Jan 1990.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Bidya Dhar Das (No. 4161370K now JC-196565P), 1st Jan 1990.

Hav Clk Raghbir Prasad Jangid (No. 4161390X now JC-196566X), 18th Jan 1990\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Jan 1990 without effect on pay and allowances).

The Naga Regt

To be Nb Sub

Hav Pratap Singh (No. 4165187Y now JC-196583X), 21st Jan 1990\*

\*(Granted ante date seniority wef 27th Sep 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Bhupal Singh (No. 4167846F now JC-196584A), 27th Sep 1989.

Hav Mangal Singh (No. 4163144L now JC-196585H), 27th Sep 1989.

CHM Tefoua (No. 14700538K now JC-196586I), 01st Jan 1990.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Bishan Ram Arya (No. 4160853P now JC-196587N), 1st Jan 1990.

The Kumaon Regt

To be Nb Sub

Hav Puran Singh Parihar (No. 4168520X now JC-196556N), 10th Dec 1989\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh (No. 4167685K now JC-196557W), 2nd Jan 1990.

To be Nb Sub

The Naga Rgt

Hav Shyam S Rawat (No. 4050235F now JC-196582P), 8th Dec 1989.

The Kumaon Regt

To be Nb Sub

Hav Ratan Singh (No. 4165870Y now JC-196547M), 21st Dec 1989\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Singh (No. 4166717P now JC-196548P), 3rd Dec 1989\*

\*(Granted ante date seniority wef 10 Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Siya Ram Yadav (No. 4159622M now JC-196549X), 20th Jan 1990\*

\*(Granted ante date seniority wef 26 Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Khim Singh (No. 4165726W now JC-196550M), 6th Dec 1989\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Dec 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Kaman Singh (No. 4162791Y now JC-196551P), 1st Jan 1990.

Hav Shankar Datt (No. 4162375P now JC-196552X), 1st Jan 1990.

Hav Tek Bahadur Chand (No. 4166357K now JC-196553A), 1st Jan 1990.

Hav Prem Singh (No. 4166125I now JC-196554H), 1st Feb 1990.

Hav Charri Chand (No. 4166226Y now JC-196555L), 1st Feb 1990.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Mahesh Chandra Joshi (No. 4161398K now JC-196544Y), 1st Feb 1990.

Hav Clk Laxman Singh Rotela (No. 4161493W now JC-196545F), 1st Feb 1990.

Hav Clk Dina Bandhu Sinha (No. 4161543W now JC-196546K), 1st Feb 1990.

To be Nb Sub

Hav Pratap Singh (No. 4164954A now JC-196537H), 13th Nov 1989.

Hav Rajendra Singh (No. 4166866H now JC-196538I), 28th Nov 1989.

Hav Ram Chander (No. 4166824W now JC-196539W), 28th Nov 1989.

Hav Nain Singh (No. 4165860P now JC-196540H), 1st Jan 1990.

Hav Prem Ballabh (No. 4166871H now JC-196541I), 1st Jan 1990.

Hav Rajendra Singh (No. 4161486A now JC-196542N), 1st Jan 1990.

Hav Soban Singh (No. 4161976N now JC-196543W), 1st Jan 1990.

The Garhwal Rifles

To be Nb Sub

Hav Gaje Singh Bisht (No. 4050926N now JC-196530Y), 1st Nov 1989.

Hav Mohan Singh Negi (No. 4050205K now JC-196531F), 5th Dec 1989\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Rudra Singh Negi (No. 4049104K now JC-196532K), 4th Dec 1989\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Govind Singh (No. 4052773N now JC-196533M), 1st Jan 1990.

Hav Dev Singh Bhandari (No. 4052716M now JC-196534P), 1st Jan 1990.

Hav Dilwar Singh Rawat (No. 4051042N now JC-196535X), 9th Jan 1990.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Sarbjit Girdi (No. 4050165N now JC-196536A), 1st Jan 1990.

## To be Nb Sub

Hav Mungase Bhivasan Shripati (No. 2766240W now JC-196525N), 1st Dec 1989.

Hav Raunpal Chand Ranola (No. 4051480F now JC-196526W), 1st Dec 1989.

Hav Harpal Singh (No. 4055818N now JC-196527Y), 1st Dec 1989.

Hav Kirpal Singh Negi (No. 4048835L now JC-196528E), 16th Feb 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Singh (No. 4052647F now JC-196529K), 1st Feb 1990.

## THE DOGRA REGIMENT

## To be Nb Sub

Hav Balbir Singh (3966734A now JC-196520P), 20th Jan 1998.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st June 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Chand (3966134X now JC-196521X), 10th Aug 1989.\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st July 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Kashmir Singh Jaswal (3966514W now JC-196522A), 1st Nov 1989.

Hav Sita Ram (3967426M now JC-196523H), 1st Nov 1989.

Hav Sher Singh (3966137L now JC-194524L), 7th Jan 1990.

## The SIKH LI

## To be Nb Sub (GD)

Hav Jit Singh (No 4454398A now JC-196504X), 21st Mar 1989.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1st Mar 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Nirmal Singh (No 4455727Y now JC-196505A), 1st July 1989.

Hav Jagtar Singh (No 4454707X now JC-196506H), 25th Sep 1989.

Hav Narinder Singh (No 4455521A now JC-196507L), 24th Oct 1989.\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1st Oct 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Malkit Singh (No 4456453K now JC-196508N), 1st Oct 1989.

Hav Gurmel Singh (No 4455602A now JC-196509W), 6th Oct 1989.

Hav Gian Singh (No 4451823P now JC-196510L), 1st Jan 1990.

Hav Avtar Singh (No 4455313L now JC-196511N), 1st Jan 1990.

Hav Naib Singh (No 4455197N now JC-196512W), 1st Jan 1990.

Hav Samitar Singh (No 4452778A now JC-196513Y), 8th Jan 1990.

Hav Gulzar Singh (No 4449509H now JC-196514F), 8th Jan 1990.

Hav Balwant Singh (No 4449523P now JC-196515K), 8th Jan 1990.

## To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Faqir Chand (No 4448459W now JC-196516-M), 21st July 1989.

Hav (Clk) Maghar Singh (No 4449625L now JC-196517P), 23rd Dec 1989.

## THE SIKH LI

## To be Nb Sub (GD)

Hav Kabal Singh (No 4452668L now JC-196492N), 1st Mar 1989.

Hav Ram Pal Singh (No 4456725Y now JC-196493W), 5th Aug 1989.

Hav Garib Singh (No 4456440M now JC-196494Y), 5th Aug 1989.

Hav Kashmir Singh (No 4450975K now JC-196495F), 1st Sep 1989.

Hav Bakhshish Singh (No 4448936M now JC-196496K), 25th Sep 1989.

## To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Sarup Singh (No 4448472A now JC-196497M), 8th Nov 1989.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (GD) with effect from 1st Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Gurbachan Singh Gill (No 4448259A now JC-196498P), 1st Jan 1990.

Hav (Clk) Samuel B Masih (No 4448755F now JC-196499-X), 1st Jan 1990.

Hav (Clk) Karam Singh (No 4449810Y now JC-196500-F), 1st Jan 1990.

Hav (Clk) Niranjan Dass Sehgal (No 8018301K now JC-196501K), 1st Jan 1990.

Hav (Clk) Rameshwar Dass (No 8018877F now JC-196502-M), 1st Feb 1990.

Hav (Clk) Gurmail Singh (No 4449932H now JC-196503-P), 1st Feb 1990.

## THE SIKH LI

## To be Nb Sub (GD)

Hav Tejpal Singh (No 4453178K now JC-196490H), 1st Jan 1990.

Hav Kesar Singh (No 4449745K now JC-196491L), 1st Jan 1990.

## THE SIKH REGIMENT

## To be Nb Sub

CHM Harbhajan Singh (3363334L now JC-196488L), 22nd Dec 1989.

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Lakhbir Singh (3367531L now JC-196489N), 1st Mar 1990.

## THE SIKH REGIMENT

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Gurnam Singh (3367570K now JC-196487H), 1st Mar 1990.

## THE JAT REGT

## To be Nb Sub

Hav Raj Singh (No 3165185P now JC-196483M), 11th Jan 1990.

Hav Dharam Chand (No 3165957K now JC-196484P), 11th Jan 1990.

Hav Bachan Singh (No 3968308L now JC-196485X), 1st Feb 1990.

## To be Nb Sub Clk

Hav (Clk) Lal Singh Yadav (No 3160741Y now JC-196486A), 14th Jan 1990.

## THE JAT REGT

## To be Nb Sub

Hav Kesar Mal (No 3158227W now JC-196479K), 23rd Nov 1989.

Hav Harkhyal (No 3162606K now JC-196480Y), 19th Feb 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23rd Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Gopi Chand (No 3159050A now JC-196481F), 1st Feb 1990.

Hav Hari Ram Verma (No 3159013M now JC-196482K), 1st Mar 1990.

## THE RAJPUT REGIMENT

## To be Nb Sub

Hav Govind Singh (No 2968265L now JC-196474L), 16th Dec 1989.\*

\*(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Bishal Upadhyay (No 2967703W now JC-196475-N), 1st Dec 1989.

Hav Kundan Singh (No 2969617K now JC-196476W), 1st Dec 1989.

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Shambhu Nath Tarafdar (No. 2966161L now JC-196477Y), 1st Feb 1990.

Hav Clk Ran Bir Singh (No 2966269H now JC-196478F), 1st Feb 1990.

## THE RAJ RIF

## To be Nb Sub

Hav Umed Singh (No 4053647N now JC-196463Y), 21st Nov 1989.

Hav Hukam Singh Chauhan (No 2867705M now JC-196464F), 22nd Nov 1989.

Hav Dharamveer Singh (No 2867541F now JC-196465K), 7th Dec 1989.

Hav Mahinder Singh (No 2864458Y now JC-196466M), 23rd Dec 1989.

Hav Rajbir Singh (No 2866511X now JC-196467P), 29th Dec 1989.

Hav Birendra Singh Rawat (No 4054512Y now JC-196468-X), 1st Jan 1990.

Hav Tara Chand (No 2866423F now JC-196469A), 24th Jan 1990.

Hav Anar Singh (No 2867745N now JC-196470P), 1st Feb 1990.

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Shamsher Singh (No 2862925M now JC-196471-X), 1st Jan 1990.

Hav Clk Sewa Singh (No 2862875M now JC-196472A), 1st Jan 1990.

Hav Clk Rajpal Singh (No 2862937F now JC-196473H), 1st Jan 1990.

## THE RAJ RIF

## To be Nb Sub

Hav Sunder Singh (No 2863726L now JC-196449M), 1st Dec 1989.

Hav Ved Parkash Godara (No 2864395F now JC-196450-F), 1st Dec 1989.

Hav Ranvir Singh (No 2864447M now JC-196451K), 18th Dec 1989.

Hav Ram Karan Bhakar (No 2864532P now JC-196452-M), 1st Feb 1990.

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Ram Niwas Choudhary (No 2862609N now JC-196453P), 1st Jan 1990.

Hav Clk Dashrath Singh (No 2862794M now JC-196454-X), 1st Jan 1990.

Hav Clk Gajandar Singh (No 2862850A now JC-196455-A), 1st Jan 1990.

Hav Clk Alexander E-Daisal (No 2862836 now JC-196456H), 1st Jan 1990.

Hav Clk Dilbagh Singh Bhella (No 2862688N now JC-196457L), 1st Jan 1990.

Hav Clk Jagmal Singh (No 2862856F now JC-196458N), 1st Jan 1990.

Hav Clk Rameshwar Dayal (No 2862855Y now JC-196459-W), 1st Jan 1990.

Hav Clk Ram Ratan Varma (No 2862708W now JC-196460L), 1st Jan 1990.

Hav Clk Shiri Bhagwan (No 2862861M now JC-196461N), 1st Jan 1990.

Hav Clk Daya Nand (No 2862728K now JC-196462W), 1st Jan 1990.

## THE MARATHA LI

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Janardhanan Nair PP (No 2762897W now JC-196435M), 1st Dec 1989.

Hav Clk Prakash Nagoji Mandolkar (No 2762868F now JC-196436P), 1st Feb 1990.

## To be Nb Sub

Hav Mohan Lagad (No 2762715X now JC-196437X), 21st Jan 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 20th Aug 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Vasant Kharsade (No 2760873N now JC-196438A), 1st Sep 1989.

Hav Chougule Hindurao Yeshwant (No 2762532F now JC-196439H), 23rd Nov 1989.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Balu Parashram Nikkam (No 2767692L now JC-196440X), 7th Nov 1989.

Hav Patil Maruti Vithu (No 2767704P now JC-196441-A), 7th Nov 1989.

Hav Kadam Suryakant Tukaram (No 2769946W now JC-196442H), 23rd Dec 1989.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 7th Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Mulik Suresh Tukaram (No 2766936F now JC-196443-I), 22nd Dec 1989.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Dec 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Shirke Yashawant Ramchandra (No 2767440Y now JC-196444N), 27th Dec 1989.

Hav Babasaheb Shankar Ambare (No 2767998N now JC-196445W), 7th Feb 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Jan 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Atmaram Janaba Patil (No 2767622M now JC-196446Y), 7th Feb 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Jan 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Sanpat Karle (No 2766808K now JC-196447F), 1st Feb 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Jan 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Mohite Shankar Shivaram (No. 2770378H now JC-196448K), 5th Jan 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Jan 1990 without effect on pay and allowances).

#### THE MARATHA LI

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Bale Vasant (No 2763592H now JC-196419P), 1st Mar 1990.

To be Nb Sub

Hav Kadam Bhagwat Shidoba (No 2763986F now JC-196420K), 4th Mar 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Jan 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Phati Gawas (No 2760633W now JC-196421M), 1st April 1989.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Mar 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Sitaram Tukaram Dalvi (No 2767529L now JC-196422P), 1st Aug 1989.

Hav Sawant Dinanath (No 2764122K now JC-196423X), 18th Sep 1989.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 27th Aug 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Nalawde Harichandra Mahadeo (No 2767189N now JC-196424A), 1st Sep 1989.

Hav Sawant Subhash Kudaji (No 2769149L now JC-196425H), 13th Sep 1989.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Sep 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Dhawale Vishwanath Kondiba (No 2770674N now JC-196426L), 1st Jan 1990.

Hav Ajeet Kumar (No 2770249H now JC-196427N), 1st Jan 1990.

Hav Gavade Subhash (No 2764141P now JC-196428W), 31st Jan 1990.

Hav Chavan Vilas Yeshwant (No 2765971Y now JC-196429Y), 31st Jan 1990.

Hav Kavade Madankumar Laxman (No 2766005X now JC-196430N), 31st Jan 1990.

Hav Dabhale Vithoba Gopal (No 2766657W now JC-196431W), 31st Jan 1990.

Hav Mohan Viswnathrao Shinde (No 2765042Y now JC-196432Y), 31st Jan 1990.

Hav Dudhal Tukaram Sheku (No 2767893K now JC-196433F), 31st Jan 1990.

Hav Dagadu Berad (No 2763239W now JC-196434K), 31st Jan 1990.

#### THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Piar Chand (No 2658460W now JC-196397F), 1st Mar 1990.

Hav Majid Ali (No 2658559M now JC-196398K), 7th Mar 1990.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1990 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Hari Singh (No 2659581K now JC-196399M), 1st Nov 1989.

Hav/Clk Mohammad Musa (No 2659801H now JC-196400W), 1st Jan 1990.

Hav/Clk Madan Lal (No 2659688Y now JC-196401Y), 1st Jan 1990.

Hav/Clk Inderjit Singh Bains (No 2659926A now JC-196402F), 1st Jan 1990.

Hav/Clk Dev Raj (No 2659780X now JC-196403K), 1st Jan 1990.

Hav/Clk Bal Kishan (No 2659882M now JC-196404M), 1st Jan 1990.

Hav/Clk Natha Singh Chahar (No 2659941P now JC-196405P), 1st Jan 1990.

Hav/Clk Dev Raj Singh (No 2659191F now JC-196406X), 14th Feb 1990.

(Granted seniority in the rank of Nb/Sub (Clk) wef 1st Dec 1989 without effect on pay and allowances).

#### THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Thakur Sunil Kumar (No. 2666112K Now JC-196407A), 28th Jul 1989.

Hav Phool Chand Meena (No. 2666954P now JC-196408 H), 1st Oct 1989.

Hav Bhoi Soma Bhai Moti Bhai (No. 2664058H now JC-196409L), 6th Oct 1989.

Hav Suwa Singh (No. 2662002X now JC-196410A), 1st Jan 1990.

Hav Mahabir Singh (No. 2659635A now JC-196411H), 1st Jan 1990.

Hav Amir Khan (No. 2666914N now JC-196412L), 1st Jan 1990.

Hav Ram Surat Yadav (No. 2658390H now JC-196413 N), 1st Jan 1990.

Hav Dharambir (No. 2661717F now JC-196414W), 1st Jan 1990.

Hav Suraj Mal (No. 2661154M now JC-196415Y), 1st Jan 1990.

Hav Sewa Ram Singh (No. 2657116Y now JC-196416F), 1st Jan 1990.

Hav Lachman Singh (No. 2661492K now JC-196417K), 31st Jan 1990.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Ishwar Singh (No. 2659666A now JC-196418M), 1st Feb 1990.

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Buddana Ragavayya (No. 2576161I. now JC-196394 N), 13th Mar 1990\*.

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 17 Oct 89 without effect on pay and allowances).

Hav Madhusoodanan Nair M (No. 2575145F now JC-196395W), 1st Dec 1989.

Hav Mahadev Moh (No. 2576724A now JC-196396Y), 1st Jan 1990.

#### THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Chain Singh (No. 2462864N now JC-196375H), 01st Nov 89.

Hav Madan Lal (No. 2460176P Now JC-196376L), 7th Nov 89.

(Granted ante date of seniority wef 01 Nov 89 without effect on pay and allowances).

Hav Dharam Singh (No. 2461735A Now JC-196377N), 01st Jan 90.

(Granted ante date of seniority wef 28 Nov 89 without effect on pay and allowances).

Hav Prabhu Singh (No. 2460551L now JC-196378W), 01st Dec 89.

Hav Ramesh Kumar (No. 2466505W now JC-196379Y), 01st Dec 89.

Hav Kulwant Singh (No. 2461866L now JC-196380N), 01st Jan 90.

Hav Balkar Singh (No. 2464375A now JC-196381W), 01st Jan 90.

Hav Piar Chand (No. 2462788L now JC-196382Y), 01st Jan 90.

Hav Krishan Lal (No. 2458400X now JC-196383F), 22 Jan 90.

Hav Avtar Singh (No. 2461726Y now JC-196384K), 22 Jan 90.

Hav Ranjit Singh (No. 2460776X now JC-196385M), 24th Jan 90.

Hav Bhag Singh (No. 2461590A now JC-196386P), 01st Feb 90.

Hav Rasil Singh (No. 2463238P now JC-196387X), 01st Feb 90.

Hav Sudarshan Singh (No. 2464436M now JC-196388A), 01st Feb 90.

Hav Shakti Chand (No. 2464516K now JC-196389H), 01st Feb 90.

Hav Ramesh Chand Rana (No. 2464642W now JC-196390X), 01st Feb 90.

Hav Santokh Raj (No. 2464843P Now JC-196391A), 26th Feb 90.

To be Nb Sub (Clerks)

Hav Gian Chand (No. 2459294W now JC-196392H), 01st Jan 90.

Hav Naginder Singh (No. 2459324H now JC-196393L), 01st Jan 90.

#### THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Narayanan P (No. 13608176X now JC-196366F), 18th Feb 1990\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Surender Singh (No. 13608805K now JC-196367K), 19th Dec 1989\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Sep 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Saseendran Thana Parambil (No. 13607724X now JC-196368M), 18th Dec 1989\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Roshan Lal (No. 3968817K now JC-196369P), 2nd Feb 1990\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Bidhi Chand (No. 13606504F now JC-196370K), 9th Dec 1989.

THM Kishan Singh (No. 3964618Y now JC-196371M), 8th Jan 1990\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Sarup Singh (No. 13609953F now JC-196372P), 20th Feb 1990\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 1990 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Cik)

Hav (Cik) Muthan Karuppan (No. 13606406F now JC-196373X), 1st Jan 1990.

Hav (Cik) Hari Singh Rathore (No. 13606448N now JC-196374A), 1st Jan 1990.

#### BRIGADE OF THE GUARDS

To be Nb Sub

Hav Surendra Narayan Singh (No. 13667422P now JC-196348Y), 01st Apr 1989.

Hav Balwant Singh (No. 13664410P now JC-196349F), 01st Sep 1989.

Hav Charan Singh (No. 13667912H now JC-196350W), 01st Sep 1989.

Hav Man Singh (No. 13665578N now JC-196351Y), 01st Oct 1989.

Hav Dilpat Ram (No. 13665682F now JC-196352F), 01st Oct 1989.

Hav Balwan Singh (No. 13672372Y now JC-196353K), 23rd Jan 1990\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06th Oct 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Rup Lal Sharma (No. 13734304W now JC-196354M), 27th Oct 1989.

Hav Jai Dev Singh (No. 13850147N now JC-196355P), 27th Oct 1989.

Hav Bhupal Singh Bisht (No. 14221186H now JC-196356X), 27th Oct 1989.

Hav Phool Singh, Katewa (No. 13670266F now JC-196357A), 10th Nov 1989.

Hav Om Prakash (No. 13667519A now JC-196358H), 16th Nov 1989.

Hav Visheshwar Singh (No. 13667521X now JC-196359L), 16th Nov 1989.

Hav Chandra Pal Singh (No. 13671555H now JC-196360A), 16th Nov 1989.

Hav Shambu Singh (No. 13668762K now JC-196361H), 16th Nov 1989.

Hav Sant Lal (No. 13665880M now JC-196362L), 29th Nov 1989.

Hav Daya Singh Gujar (No. 13670930W now JC-196363M), 01st Dec 1989.

Hav Amar Singh (No. 13665388F now JC-196364W),  
07th Jan 1990.

Hav Rajender Singh (No. 13668487P now JC-196365Y),  
06th Feb 1990.

**THE DOGRA REGT**

To be Nb Sub

Hav Hunnar Singh (No. 3965515M now JC-196518X),  
9th Feb 1990.\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct  
1989 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Kaman Singh Pathania (No. 3966185L now JC-  
196519A), 1st Sep 1989.

T. V. KRISHNAMOORTHY, Under Secy.

**NATIONAL CADET CORPS**

No. 1390, dated the 31st August 1990.—The President is  
pleased to promote the following officer to the selection rank  
of Cdr in accordance with Govt of India letter No. 5431/  
PROMOTION/DGNCC/MS(B)/818/A/D/(GS-VI), dated  
07 Apr 81. His scale of pay will be regulated as per Govt  
of India Min of Defence letter No. 5431/PROMOTION/  
DGNCC/MS(B)/1257/A/D/(GS-VI), dated 03 June 1981.  
His seniority for promotion and pay in the permanent cadre  
will be as per Min of Defence letter No. 5110/81/DGNCC/  
Pers(A)/11117/D(GS-VI), dated 13 May 1981.

**NCC WHOLE TIME PERMANENT COMMISSIONED**

**OFFICER**

(NAVAL WING)

Lt Cdr to be Cdr by selection)

OK Ramdas (NCCN/PC-11966), 04 Apr 90.

No. 1391, dated the 31st August 1990.—The President is  
pleased to promote the following officers to the selection rank  
of Lt Col in accordance with Govt of India letter No. 5431/  
PROMOTION/DGNCC/MS(B)/818/A/D/(GS-VI), dated  
07 Apr 81. Their scale of pay will be regulated as per Govt  
of India Min of Defence letter No. 5431/PROMOTION/  
DGNCC/MS(B)/1257/A/D/(GS-VI), dated 03 June 1981.  
Their seniority for promotion and pay in the permanent cadre  
will be as per Min of Defence letter No. 5110/81/DGNCC/  
Pers(A)/11117/D(GS-VI), dated 13 May 1981.

**NCC WHOLE TIME PERMANENT COMMISSIONED**  
**OFFICERS**

(ARMY WING)

(Maj to Lt Col by selection)

SM Nayyar (NCC/PC-11883), 09 Mar 90.

VS Dixit (NCC/PC-11903), 01 May 90.

BB MOHAPATRA, Dy DIR Gen (P&F).

**ARMY BRANCH**

No. 1392, dated the 10th September 1990. The under-  
mentioned Ex JCOs are re-employed on the active list in  
the rank and from the dates specified :—

**REGULAR ARMY**

**DEFENCE SECURITY CORPS**

In the rank of Subedars

Subedar Jaswant Singh (JC-85192X), Formerly Jak Rif,  
11 June 1989.

Subedar Balbir Singh (JC-92376Y), Formerly Artillery  
15 June 1989.

Subedar Ramji Lal (JC-63966P), Formerly Para Regt 02  
Aug 1989.

Subedar Subhash Chander Chatrath (JC-109573A), For-  
merly Artillery 14 Aug 1989.

In the rank of Naib Subedars

Naib Subedar Raj Kumar Rajput (JC-114174A) Formely  
Grenadiers, 19 Aug 1989.

Naib Subedar Durga Das (JC-155814L) Formerly Jak Rif  
19 Aug 1989.

Naib Subedar Chhajju Singh Jasrotia (JC-92550A) For-  
mely AMC, 12 June 1989.

Naib Subedar Suram Singh (JC-112207F), Formerly  
Artillery 15 June 1989.

Naib Subedar Om Parkash (JC-152819F) Formerly Gre-  
nadiers 01 June 1989.

In the rank of Subedar Clerk

Subedar Clerk Avtar Singh (JC-102531L), Formely  
Signals, 05 Nov 1989.

T. B. NAIR, Desk Officer

No. 1393, dated the 14th September 1990.—On retirement  
from service the following General Officer relinquished the  
appointment of Honorary Surgeon to the President from  
the date shown against his name :—

Lt Gen Suraj Prakash (Ex-DG MS (Army) MR-660, 31  
Jul 90 (AN).

S. CHAKRABORTY

Maj Gen

Dy DGAFFMS

(ARMY BRANCH)

No. 1394, dated the 28th September 1990.—The President  
is pleased to invalid out of service the following officer :—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

Capt Anit Dua (MR-05154W), AMC 01st July 1990  
(FN).

S CHAKRABORTY

Maj Gen

Dy DGAFFMS

